

सतत एवं समग्र मूल्यांकन

# सी.सी.ई.


उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिमान सामग्री



गणित



मिल-जुल कर स्कूल में जाएँ, साथ पढ़ें और  
साथ मैं खाएँ। रंग-बिरंगी प्यारी दुनिया,  
साथ मिलकर इसे सजाएँ।



---

## सतत एवं समग्र मूल्यांकन

# सी.सी.ई.

---

## उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिमान सामग्री

---

### गणित



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

# शिक्षित बालिका समाज की रचयिता



## प्राक्कथन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 तैयार की थीं जिसे संसद द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा गया। इस पाठ्यचर्चा रूपरेखा का दर्शन रचनावाद से प्रभावित है जो इस बात में विश्वास करता है कि सीखना अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यह रूपरेखा इस विश्वास पर आधारित है कि सीखना भिन्न-भिन्न विषयों को अलग-अलग रखकर चलने वाली पद्धति में संभव नहीं होता बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सभी कारकों से जुड़ा होता है। इसलिए बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए भी समग्रतावादी दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। इसीलिए ‘सतत एवं समग्र मूल्यांकन’ की प्रणाली लागू की गई।

पिछले कुछ वर्षों के अनुभव बताते हैं कि भिन्न-भिन्न शैक्षिक संस्थाओं और समूहों ने ‘सतत एवं समग्र मूल्यांकन’ के प्रति अपनी एक अलग ही सोच व समझ बनाई है और इसमें किसी तरह की हैरानी वाली बात नहीं है। देश भर में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में अलग-अलग तरीके से काम किया जा रहा है, और मुश्किल वाली बात तो यह है कि ये सब पद्धतियाँ राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा-2005 की पूरी तरह से उपेक्षा एवं विरोध सा करती नज़र आती हैं। ऐसी स्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली ने आवश्यक समझा कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन के संदर्भ में सही दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। परिषद् द्वारा 2009 में तैयार ‘आकलन के लिए स्रोत पुस्तिका’ पहले से ही मौजूद है तथापि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि उस स्रोत पुस्तिका के साथ सुसम्बद्धता जोड़ते हुए सघन समझ पैदा कर सकने वाली सामग्री तैयार की जाए।

यह सामग्री मुख्यतः तीन खंडों में विभाजित है। पहला खंड सतत व समग्र मूल्यांकन से जुड़ी भ्रान्तियों को दूर करने और अवधारणा को सही रूप में समझने के अवसर देता है। दूसरा खंड अध्यापकों को सुझाता है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए किन पद्धतियों को अपनाना होगा और इसके लिए भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्चा के विषयों के उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। तीसरे खंड में शिक्षा से सरोकार रखने वाले सभी भागीदारों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, उन सभी का शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानकों का अनुसरण करने वाली कक्षाओं में क्षेत्र परीक्षण करके देखा गया है। उदाहरणार्थ प्रस्तुत यह सामग्री राज्यों को उनकी आवश्यकतानुसार ज्यों का त्यों प्रयोग में लाने अथवा स्थिति विशेष के अनुसार थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ मदद करेगी।

सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए उदाहरणार्थ सामग्री की प्रस्तुति राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का साझा प्रयास है। इस सामग्री के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया में अध्यापकों की सहभागिता और कक्षाओं में किए गए क्षेत्र परीक्षण के रहते यह एक ऐसा आकार ले पाई है कि कक्षाओं में सुविधाजनक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनिसेफ व उन सभी संस्थाओं एवं व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस सामग्री के बनाने में भिन्न-भिन्न रूप में योगदान दिया है। इस बात का उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस परियोजना का सफलतापूर्वक

समन्वयन किया है।

यह सामग्री पूरी तरह से प्रस्तावित है। हम सामग्री को उन्नत करने और अधिकाधिक सफलता के साथ उपयोग करने के सुझावों व टिप्पणियों का सदा ही स्वागत करते हैं।

यह सामग्री आपके विचारार्थ प्रस्तुत है। हम सामग्री को उन्नत करने और अधिकाधिक सफलता के साथ उपयोग करने के सुझावों व टिप्पणियों का सदा ही स्वागत करते हैं।

हषिकेश सेनापति

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

फरवरी 2017

नई दिल्ली

## सामग्री के बारे में

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली ने सभी पाठ्यचर्यक क्षेत्रों के लिए प्राथमिक स्तर हेतु सतत एवं सारगर्भित मूल्यांकन पर सामग्री तैयार की है। इस सामग्री के विकास एवं निर्माण की प्रक्रिया में विषय विशेषज्ञों, अध्यापकों, शिक्षाविदों ने कार्यशालाओं व बैठकों के माध्यम से सुझाव एवं परामर्श दिए हैं। सामग्री की तैयारी से जुड़े सदस्यों ने इसके प्रति अध्यापकों में समझ बनाई जिन्होंने आगे अपनी कक्षाओं में इसे क्रियान्वित करके देखा। इस प्रकार यह सामग्री क्षेत्र परीक्षण के द्वारा सफलतापूर्वक तैयार की गई है। सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए इस प्रकार की उदाहरणार्थ सामग्री को तैयार करने के पीछे मुख्य भाव यह था कि अध्यापकों को सतत व समग्र मूल्यांकन के लिए कुछ ऐसी युक्तियाँ दी जाएं जो वे प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के भिन्न-भिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए कक्षा में किस तरह से अर्थपूर्ण तरीके से मूल्यांकन किया जाए, इस बात के लिए यह सामग्री पूरी तरह से अध्यापकों को मदद करेगी, जैसे कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान आकलन कैसे किया जाए, बाद में आकलन कैसे किया जाए, बच्चे की प्रगति कैसे दर्ज की जाए और कैसे फीडबैक दिया जाए, आदि। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अध्यापक सामान्यतः सभी विषय पढ़ाते हैं इसलिए सभी विषयों के उदाहरण इस दस्तावेज़ में सारगर्भित रूप से शामिल किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर काम कर रहे अध्यापकों को सिर्फ यही मदद नहीं मिलेगी कि किस तरह से भिन्न-भिन्न विषयों के सीखने-सिखाने को समावेषित रूप दिया जा सके बल्कि उनकी यह भी समझ बनेगी कि कैसे विषय वस्तुओं के बोझिल दोहराव से बचा जा सके। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू एवं कला शिक्षा सभी के लिए विषयानुसार सामग्री तैयार की गई है। जिन कक्षाओं में छात्र शिक्षक अनुपात शिक्षा के अधिकार अधिनियम मानकों के अनुसार है (प्राथमिक स्तर पर 1:30 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:35) वहाँ इन गतिविधियों का क्षेत्र परीक्षण भी करके देखा गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस सामग्री को इसके यथास्वरूप या अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके सामग्री का उपयोग किया जा सकता है।

इस दस्तावेज़ के मुख्यतः तीन खंड हैं –

- ◆ **खंड-1:** यह सामग्री हमारी किस तरह से मदद करेगी और शिक्षा व्यवस्था सतत एवं समग्र मूल्यांकन को लेकर किस तरह की भ्रान्तियों से जूझ रही है, इन सबके स्पष्टीकरण की तस्वीर पेश करता है पहला खंड। यह खंड शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के परिपेक्ष्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन के प्रति समझ बनाता है।
- ◆ **खंड-2:** यह खंड विषयानुसार कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करता है जो यह बताते हैं कि आकलन की प्रक्रिया को क्या आकार देना चाहिए जिससे कि यह सीखने-सीखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बने और ‘सीखना’ केंद्र में रहे (रचनात्मक आकलन)। इस खंड में प्रत्येक विषय के आकलन के आधार भी ‘संकेतकों’ के रूप में उल्लिखित हैं। दोहराने की आवश्यकता नहीं, ये संकेतक भी प्रस्तावित हैं। इस खंड में दिए उदाहरण कुछ इस तरह की जानकारी भी देते हैं कि सीखने का आकलन (योगात्मक आकलन) अध्यापकों के द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जाए और बच्चों की प्रगति की जाँच के लिए पेपर पैसिल टैस्ट के अतिरिक्त और किन-किन युक्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है।  
यह खंड यह भी सुझाता है कि अध्यापकों को किस प्रकार की जानकारी रिकार्ड के रूप में रखनी चाहिए

और आकलन संबंधी कौन से बिंदु रिपोर्ट कार्ड में लिखने चाहिए जिससे कि बच्चों की प्रगति की सारगर्भित तस्वीर प्रस्तुत हो सके।

- ◆ खंड-3: खंड 2 में दिए गए उदाहरणों के आधार पर यह खंड सतत एवं समग्र मूल्यांकन के क्रियान्वयन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रेखांकित करता है। यह खंड अध्यापकों में कुछ इस तरह की समझ बनाने की दिशा में कार्य करता है कि आकलन किस प्रकार से सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, सूचनाएं संग्रहित करने के कौन-कौन से स्रोत हो सकते हैं, रिपोर्ट करने के लिए किस तरह की सूचनाओं को लिखा जाना चाहिए और बच्चों की प्रगति को किस तरह से सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इस पैकेज में प्राथमिक स्तर पर फोकस करते हुए ‘सी.सी.ई. इन मैथमैटिक्स क्लासरूम’ पर एक फ़िल्म भी शामिल है। यह फ़िल्म चित्रित करती है कि कैसे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के जारी रहते हुए अध्यापक बच्चे का आंकलन करता है और इस प्रक्रिया के भीतर ही बच्चों को फीडबैक प्रदान करने के क्या तरीके हैं। इससे सीसीई के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कुछ मिथ्या-धारणा भी स्पष्ट होंगी।

## कृतज्ञता ज्ञापन

प्रारंभिक स्तर के लिए सतत एवं सारगर्भित मूल्यांकन पर उदाहरणार्थ सामग्री का निर्माण सम्मिलित सांस्थानिक अकादमिक प्रयास है जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं यूनिसेफ ने पूरी तरह सहयोग दिया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तरों पर केन्द्र समूह की बैठकों एवं भिन्न-भिन्न उप समूहों की कार्यशालाओं के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण रचनात्मक सुझाव बिंदु सामने आए। प्रख्यात शिक्षाविदों, विषयविशेषज्ञों, अध्यापकों, शिक्षाशास्त्रियों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों एवं परिषद् के संकाय सदस्यों ने इस सामग्री के विकास एवं निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परिषद् में गठित केंद्रिक समूह के सदस्यों द्वारा सुझाए गए बिंदुओं से सामग्री समृद्ध एवं पृष्ठ हुई है। श्री भट्टाचार्य, पूर्व सचिव, एवं सुश्री वृंदा सरूप, अतिरिक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के कुशल नेतृत्व से जो अनवरत सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला है, उसके प्रति हार्दिक सराहना के भाव प्रकट करते हैं। हम प्रो. कृष्ण कुमार, परिषद् के पूर्व निदेशक के मूल्यवान योगदान हेतु आभारी हैं।

दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और बहुत से प्रबंधन संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कुछ चयनित विद्यालयों में इस सामग्री के क्षेत्र परीक्षण से बहुत ही लाभ मिला है। क्षेत्र परीक्षण के लिए इन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने जिस तरह से अभूतपूर्व सहयोग दिया है, उसकी भी हम सराहना करते हैं। उन सभी बच्चों और अध्यापकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अत्यावश्यक है जिन्होंने सतत एवं समग्र मूल्यांकन की इस सामग्री के क्रियान्वयन में अपनी तीव्र रुचि एवं अपार उत्साह प्रदर्शित किया है। प्रो. सरोजबाला यादव, विभागाध्यक्ष, सामाजिक शिक्षा विभाग जिन्होंने अपने यहाँ के संकाय सदस्यों को क्षेत्र परीक्षण के लिए लगाया है, बिना उनके सहयोग के सी.सी.ई पैकेज का कार्यान्वयन प्रभावशाली और सुचारू रूप से नहीं हो सकता था।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक स्टॉफ़ को विशेषकर श्री शाकम्बर दत्त, श्री ओमप्रकाश, एवं सुश्री मुनीता नारंग को उनके योगदान देने के लिए आभार प्रकट करते हैं। हम प्रारंभिक शिक्षा विभाग में परियोजना से जुड़े स्टॉफ़ सदस्यों सुश्री हेमलता (जे.पी.एफ.) सुश्री एकांक्षी (जे.पी.एफ.), श्री अशोक, अता हुसैन (कम्प्यूटर टाइपिस्ट) चरन सिंह, सना मुनब्बर (डी.टी.पी. ऑफेरेटर, डी.ई.ई), के प्रयासों की सराहना करते हैं।

अपने पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू जैन के हम अत्यंत आभारी हैं, जिन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त हम प्रोफेसर अनूप राजपूत, वर्तमान विभागाध्यक्ष के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं जिनके नेतृत्व में यह हिन्दी रूपांतरण का कार्य पूर्ण हुआ।

हम प्राथमिक स्तर के लिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर सामग्री के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग के प्रमुख प्रो. सिराज अनवर के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अन्ततः प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के निदेशक प्रो. हषिकेश सेनापति एवं पूर्व संयुक्त निदेशक प्रो. बी.के. त्रिपाठी को उनके द्वारा सतत रूप से दिए गए पूर्ण मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

संभवतया यह सूची अपने आप में पूर्ण न हो। हम उन सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस सामग्री को वर्तमान स्वरूप देने में अपना योगदान दिया है।

# सतत एवं समग्र मूल्यांकन सामग्री कार्य से जुड़ा मुख्य

## समूह

अंशुमाला, सलाहकार, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (डीईएसएम), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

बी.के. त्रिपाठी, आचार्य और पूर्व संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

धरम प्रकाश, पूर्व आचार्य (अवकाश प्राप्त), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

फारूख अंसारी, आचार्य, भाषा शिक्षा विभाग (डीईएल), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

ज्योत्सना तिवारी, आचार्य, कला और सौंदर्यशास्त्र शिक्षा विभाग (डीईएए), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

कविता शर्मा, सह आचार्य, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डीईई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

कीर्ति कपूर, आचार्य, भाषा शिक्षा विभाग (डीईएल), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

लता पांडेय, आचार्य, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डीईई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

संध्या सिंह, आचार्य, भाषा शिक्षा विभाग (डीईएल), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

तनु मलिक, सह आचार्य, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग (डीईएसएस), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

पूजा सिंह, परामर्शदाता, एस.एस.ए. प्रकोष्ठ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

### कार्यक्रम समन्वयक:

मंजू जैन, आचार्य (अवकाश प्राप्त) एवं पूर्व विभागाध्यक्ष, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डीईई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

## उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पैकेज का सी. सी. ई.

## उप-समूह

अनूप कुमार राजपूत, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

ए.के. वजलवार, आचार्य, विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग (डीईएसएम), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।

अवंतिका डाम, अध्यापिका, एक्सपेरिमेंटल बेसिक स्कूल, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।  
धरम प्रकाश, आचार्य (अवकाश प्राप्त), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक  
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।  
प्रवीन सिंक्लेयर, आचार्य और पूर्व निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।  
प्रवीन चौरसिया, सह आचार्य, आर. आई. ई., अजमेर।

#### **हिन्दी रूपान्तरण के लिए योगदान:**

अनूप कुमार राजपूत, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।  
धरम प्रकाश, आचार्य (अवकाश प्राप्त), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), राष्ट्रीय शैक्षिक  
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली।  
भारती, सहायक आचार्य, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।  
पूजा सिंह, परामर्शदाता, एस.एस.ए. प्रकोष्ठ, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।

#### **कार्यक्रम समन्वयक:**

संध्या संगई, प्रोफेसर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग (डीईई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई  
दिल्ली।  
रमेश कुमार, सहायक आचार्य, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली।



शिक्षित बालिका

शिक्षित समाज

सशक्त बालिका

सशक्त समाज

स्वस्थ बालिका

स्वस्थ समाज

# विषय सूची

प्राक्कथन	<i>iii</i>
सामग्री के बारे में	v
<b>1. भाग I: सी.सी.ई. क्या है और क्या नहीं है?</b>	<b>1</b>
1.1 सी.सी.ई. से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को समझना	2
1.2 सी.सी.ई. का 'समग्र' भाग	5
<b>2. भाग II: गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन</b>	<b>6</b>
2.1 सतत आकलन के उदाहरण	8
2.2 आकलन और अधिगम	13
<b>3. भाग III: सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व</b>	<b>15</b>
3.1 अधिगम का एक कालांश समाप्त होने के बाद का मूल्यांकन	19
3.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन	26
3.3 शिक्षक - प्रशिक्षक तथा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर/क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की भूमिकाएँ	28
3.4 सी.सी.ई. में प्रशासकों की भूमिका	29



**Empowerment of Girl Child, Responsibility of All**

# 1 मुद्रा



## सी.सी.ई. क्या है और यह क्या नहीं है?

यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपको भी यह चिंता सताती होगी कि क्या आपके छात्र आपके द्वारा किये प्रयासों से बाकई में कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। इस बात का कुछ अनुमान छात्रों की भाव भंगिमा और कक्षा में उनकी भागीदारी से लगाया जा सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि जब आप बाद में परीक्षा लें, तो पायें कि छात्रों का अधिगम अपर्याप्त है अथवा खराब है अथवा कुछ ही छात्रों ने आपकी आशानुसार प्रगति की है। अपने परिश्रम का अपेक्षित परिणाम ना पा कर, शायद आप हताश और निराश महसूस कर सकते हैं। इस स्थिति में सुधार के लिए अक्सर काफी देर हो चुकी होती है अधिकांशतः: यह भी होता है कि यदि कक्षा बाद के उपविषयों पर पहुँच चुकी है तो बाद के विषय भी अच्छे से न सीखे जा सकें, क्योंकि पिछले पाठों को सीखने में कठिनाई रह गई हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपके छात्र, अपने स्वंय के अधिगम की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और आपको उन्हें इस ओर प्रयास करने के लिए किसी न किसी तरह धकेलना पढ़ रहा है।

स्वंय को इस निरंतर तनाव से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? संसार भर में यह जाना जा रहा है कि शिक्षक को इस निराशा से बचाने का और अपने शिक्षण को बेहतर करने में उसकी मदद करने का एक तरीका है, रचनात्मक आकलन। लेकिन यह नई प्रणाली जिसे भारत में सी.सी.ई. (सतत एवं समग्र मूल्यांकन) के नाम से जाना जाता है, को अक्सर गलत समझ

लिया जाता है। वर्तमान में सी.सी.ई. छात्रों की मदद उस तरह से नहीं कर पा रहा है जैसा कि इसे करना चाहिए। प्रचलित आकलनों से सी.सी.ई. भावार्थ और क्रियान्वयन तरीकों में भिन्न है, और इस पुस्तिका में हम सीखेंगे कि आकलन को अलग तरह से कर के छात्रों और शिक्षक की मदद कैसे की जा सकती है। सी.सी.ई. पद्धति वास्तविक रूप में कक्षा कक्ष की स्थिति में आमूल परिवर्तन करने में मदद करता है अर्थात् स्थिति में रह कर उसमें सुधार लाना। यह शिक्षक का बोझ और तनाव कम करने में भी मदद करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षण अधिगम के साथ चलती है और यही कारण है कि “सतत्” शब्द उसका महत्वपूर्ण भाग है। हम पहले इस भाग पर चर्चा करेंगे और फिर ‘समग्र’ पर आयेंगे। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सतत आकलन का अर्थ छात्रों की बार-बार परीक्षा लेना मात्र नहीं है। प्रचलित तरीके से परीक्षा लेना अक्सर छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए ही बेहद बोझिल और तनावपूर्ण होता है। सी.सी.ई. अधिगम में केवल तभी मददगार हो सकता है, जब छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए ही कक्षा कक्ष के तनाव एवं बोझ में कमी ला कर शिक्षण-अधिगम को भयविहीन बनाने के साथ-साथ सुरक्षित भी बनाया जा सके।

आकलन में निरंतरता को समझने के लिए एक ऐसे डाक्टर के बारे में विचार करें, जो मरीज का इलाज लंबे समय से कर रहा है। डॉक्टर मरीज की स्थिति का निदान पहचान कर उसे दर्वाई देता है, लेकिन साथ ही साथ वह समय समय पर जाँचता भी रहता है कि इलाज कारगर है या नहीं। निदान स्वरूप, यदि अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते तो इलाज प्रणाली को बदल देता है। शिक्षक के पास बीमार मरीज तो नहीं होते, जिनकी स्थिति में सुधार की आवश्यकता हो, लेकिन उसे भिन्न-भिन्न अधिगम आवश्यकताओं और रूचि वाले छात्रों के साथ काम करना होता है। अपने कार्य में समायोजन के लिए उसे भी मोटे तौर पर डॉक्टर जैसे ही निदान तरीकों का प्रयोग करना होता है। वह समय समय पर जाँचता है कि उसका शिक्षण कितना प्रभावी हैं और अधिगम में कितनी और क्या कमी है। यह बेहद विचारशील और रचनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें अधिसंख्य छात्र शामिल हैं जो सीखने के भिन्न स्तरों पर हैं, और शिक्षक के हर कार्य/कोशिश पर अलग तरह से प्रतिक्रिया अथवा व्यवहार करते हैं। अंतः आवश्यक है कि अपने छात्रों के बारे में अपने पूर्वज्ञान का प्रयोग करके शिक्षक लगातार सतर्क जांच करता रहें। सी.सी.ई. की अवधारणा है कि शिक्षक एक ऐसा विचारशील कार्यकर्ता है जो लगातार छात्रों से हो रहे संवाद पर विचार करता रहता है।

क्या ऐसा लग रहा है कि निरंतर आकलन बेहद मुश्किल है? वास्तव में अच्छे शिक्षकों ने हमेशा ही इसका प्रयोग प्रभावी रूप से किया है। यहां हम इसके कुछ महत्वपूर्ण आयामों पर जोर दे रहे हैं, यह दिखाने के लिए कि यह अधिगम को कैसे सशक्त बना सकता है।

### 1.1 सी.सी.ई. से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली को समझना

सबसे पहले हम सी.सी.ई. और आकलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और गलत धारणाओं की चर्चा करेंगे—

- ◆ शिक्षण अधिगम के दौरान किया गया आकलन शिक्षक को छात्रों के बारे में ऐसी सूचना देता है, जिसके आधार पर शिक्षक एक दम से कुछ कर सके, विशेष कर तब जब छात्रों को



- कठिनाई आ रही हो और अतिरिक्त मदद की आवश्यकता हो। निरंतर आकलन के लिए हमेशा परीक्षा पत्रों की जरूरत नहीं होती जो सभी छात्रों को एक साथ एक समय पर दिये जाते हैं। अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि छात्रों को पता ही ना चले कि उनका आकलन किया जा रहा है। इस प्रकार से निरंतर का मतलब अधिसंख्य औपचारिक परीक्षण नहीं है।
- ◆ एक और मुख्य गलत अवधारणा संरचनात्मक और योगात्मक शब्दों से संबंधित भी है। बहुत सारे विद्यालयों के शिक्षक रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक तिमाही में बच्चों द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट कार्य आदि तथा अन्य गतिविधियों को संरचनात्मक आकलन के अन्तर्गत रिपोर्ट करते हैं। दरअसल संरचनात्मक सतत आकलन का तात्पर्य कदापि यह नहीं है कि उसे रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करके सूचित किया जाए। संरचनात्मक शब्द संरचना शब्द से जुड़ा है अर्थात् सीखने की प्रक्रिया की संरचना। सीखने-सिखाने के दौरान बच्चों की प्रगति का निरीक्षण और उसमें सुधार, इसे सीखने का आकलन भी कहा जाता है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चे के सीखने के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी उदाहरण के लिए, लिखित कार्य, मौखिक उत्तर या बच्चे की गतिविधियों का अवलोकन आदि का प्रयोग संरचनात्मक रूप से बच्चे के सीखने में सुधार के लिए उपयोग में लाए जाने चाहिए। योगात्मक आकलन वह है जो बच्चे के अधिगम की संपूर्णता जांचने के लिए पूर्व निर्धारित समय पर अथवा पाठ्यक्रम के भाग को पूरा करने पर किया जाता है (इसे अधिगम का मूल्यांकन भी कहा जाता है)। योगात्मक शब्द, योग अथवा संपूर्ण अधिगम का अनुमान लगाने से निकला है।
  - ◆ अक्सर 'आकलन' और 'मूल्यांकन' शब्दों को एक दूसरे की जगह प्रयोग कर लिया जाता है। इन दोनों शब्दों के अर्थों में एक अंतर है। आकलन का मुख्य रूप से उद्देश्य है, सीखने (अधिगम) के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना। मूल्यांकन केन्द्रित होता है, कुछ समय के अनुदेशन के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि पर। मूल्यांकन का इससे कोई संबंध नहीं है कि उपलब्धि का स्तर कैसे और क्यों आया। यह तो छात्रों के कार्य की जांच करके उसे उसकी गुणवत्ता दर्शाने के लिए कोई 'मूल्य' जैसे कि अंक अथवा ग्रेड दे देता है। आकलन ज्यादातर रचनात्मक अथवा प्रक्रियानुभुवी है, जबकि मूल्यांकन योगात्मक अथवा उत्पादोन्मुखी है।
  - ◆ 'समग्र' शब्द को भी अक्सर गलत समझ लिया जाता है। यह बच्चे को संपूर्णता में समझने की कोशिश है। इसका अर्थ बच्चे के व्यक्तित्व को पूर्णता से जानना, उदाहरण के लिए, उसके सामाजिक वार्तालाप, संवेदी स्वास्थ्य, उत्साह, शारीरिक स्वास्थ्य, गुणों, कमज़ोरियों, सीखने के प्रति अभिरुचि इत्यादि के विषय में जानना।
  - ◆ एक और भ्रांति, पाठ्यचर्या और पाठ्यचर्या सहगामी विषयों को लेकर भी है। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एंव शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा को अक्सर पाठ्यचर्या सहगामी विषय माना जाता है, और भाषा, गणित, विज्ञान इत्यादि को मूल पाठ्यचर्या सहगामी विषय ही मानता है, क्योंकि पाठ्यचर्या को मात्र शैक्षिक उपलब्धि तक के सीमित दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए।

सी.सी.ई. क्या है और यह क्या नहीं है?



- ◆ शिक्षाविद् सोचते हैं कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, बच्चों को लेबल/चिन्हित करना अथवा उनकी उपलब्धि की तुलना एक दूसरे के साथ करना। मूल्यांकन ज्यादातर यही दर्शाता है कि बच्चे को क्या नहीं आता अथवा उसकी क्या कमज़ोरियां हैं। यह बच्चों की सीखने की (अधिगम) प्रक्रिया को सुधारने पर केन्द्रित नहीं होता है। सी.सी.ई. का भावार्थ है, मूल्यांकन और आंकलन दोनों ही के द्वारा छात्रों के सीखने में सुधार। इसमें बच्चे की उपलब्धि को दूसरों से तुलना करने के बजाए, उसकी स्वयं की अपनी पूर्व उपलब्धि से तुलना की जाती है।
- ◆ एक और गलत अवधारणा अंकों और ग्रेड से भी संबंधित है। शिक्षाविद् अक्सर यह सोच लेते हैं कि अंक संख्यात्मक अथवा अधिगम उत्पाद दर्शाते हैं और ग्रेड गुणात्मक अथवा सीखने की प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। चूंकि शिक्षक अंक देने के आदी होते हैं, तो वह अक्सर पहले अंक देकर फिर उन्हें ग्रेड में बदल देते हैं। अंक और ग्रेड दोनों ही बच्चे की उपलब्धि पर मूल्यांकित फैसला है। यह अधिगम (सीखने) को मूल्य अथवा अंक दे देते हैं। इनका प्रयोग अधिगम प्रक्रिया के दौरान, संरचानात्मक उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
- ◆ सामान्य रूप से सी.सी.ई. में रिकार्ड करने की भूमिका पर भी भ्रांति है। शिक्षाविदों को लगता है कि सतत एव समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत उन्हें प्रत्येक बच्चे की प्रगति का रिकार्ड दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर, बहुसंख्य संकेतकों पर निरंतर रखना होगा। शिक्षक को सभी बच्चों का हर समय आकलन करने की ज़रूरत नहीं है न ही उन्हें बच्चों की प्रगति का विस्तृत रिकार्ड रखने और किसी दूसरे को रिपोर्ट देने की ज़रूरत है। सतत आकलन तो शिक्षक को बेहतर तरीके से पढ़ाने में सहायता करने के लिए है, और वह केवल उसी का रिकार्ड रख सकता/ती है जो वास्तव में उसे शिक्षण अधिगम को बेहतर बनाने में उपयोगी लगे। कक्षा में किसी एक छात्र के बजाए, शिक्षक केवल प्रक्रिया का भी आकलन कर सकती है, यह जानने के लिए कि उसकी शिक्षण प्रणाली काम कर रही है कि नहीं।
- ◆ अक्सर यह भी गलत अवधारणा है कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार प्रत्येक बच्चे को प्रोन्नति देनी है चाहे वह सीखे या नहीं। सतत और समग्र मूल्यांकन की अन्तर्निहित भावना यह है कि प्रत्येक बच्चे को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान सीखने के भरपूर अवसर मिलें और सहायता मिले, जहाँ भी उसे फीडबैक और सहारे/संबल की ज़रूरत है उसे मिले। इसका मतलब है कि यदि शिक्षक नियमित रूप से पूरे वर्ष भर आकलन करे और उन विधियों को अपनाएं जिससे कि बच्चे के सीखने में सुधार हो, तब वर्ष के अंत में बच्चे के असफल होने या न सीख पाने की नौबत ही नहीं आएगी।
- ◆ सतत और समग्र मूल्यांकन को गलती से पूरी तरह से शिक्षक की ही जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। इसी बजह से सतत और समग्र मूल्यांकन को लागू करना असंभव लगता है और शिक्षक अवास्तविक अपेक्षाओं के कारण स्वयं को बहुत अधिक बोझ से लदा हुआ महसूस करते हैं। इसके विपरीत सतत और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षकों का बोझ कम करने से है। यह तो सीखने की जिम्मेदारी समान रूप से छात्रों पर भी डालता है।



इसका अर्थ है कि बच्चों को भी अपने खुद के और सहपाठियों के कार्य के आकलन और एक दूसरे से सीखने में मदद की जिम्मेदारी देना। तेज गति से सीखने वाले छात्र इस कार्य के लिए शिक्षकों के लिए अच्छा संसाधन हो सकते हैं। इस प्रकार से अधिगम में साझेदारी और समूह कार्य शिक्षकों का बोझ कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं।

## 1.2 सी.सी.ई. का ‘समग्र’ भाग

किसी को भी अच्छा छात्र बनाने में व्यक्तित्व के बहुत से आयामों का योगदान होता है। सी.सी.ई. का जो ‘समग्र’ भाग है वह सुझाव देता है कि शिक्षक छात्रों के अधिगम (सीखने) को संपूर्ण दृष्टि से उनके निजी और सामाजिक गुणों से जोड़कर देखें। कक्षा में छात्रों की सामान्य/नियमित गतिविधियों का निरंतर आंकलन (जो विशेषकर अवलोकन द्वारा किया जाना है) में इन आयामों (सामाजिक एवं निजी/व्यक्तित्व) को भी शामिल करना चाहिए। यहीं वो सभी आयाम हैं जो सी.सी.ई. को समग्र बनाता है।

हांलाकि, यहां यह पहचानना, महत्वपूर्ण है कि इनमें से बहुत से गुण ऐसे हैं जिनकी जांच थोड़े समय में नहीं की जा सकती तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकों ‘ठोस’ प्रमाण के आधार पर रिकार्ड नहीं किया जा सकता है। उत्साह, सहयोग, धैर्य, एकाग्रता, रुचि एवं प्रोत्साहन, दूसरों का सहयोग करना और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना इत्यादि कुछ ऐसे गुण हैं जिनका अवलोकन कई महीनों में ही किया जा सकता है और तब भी इन्हें ठोस प्रमाण सहित दूसरों को नहीं दिखाया जा सकता। शिक्षक इन गुणों का अवलोकन छात्र के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझने और यह जानने के लिए कर सकता है कि इनका छात्र के विकास में क्या योगदान है। व्यक्तित्व के आयामों की परख के लिए औपचारिक परीक्षणों का निर्माण बेहद कठिन हैं। इन आयामों में प्रगति की जांच के लिए अधिकांशतः अनौपचारिक तरीके ही अपनाने चाहिए। इसके लिए भयहीन माहौल में मित्रवत तरीके से किया गया; स्व मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन ही उपयोगी है।

सी.सी.ई. क्या है और यह क्या नहीं है?





## गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन

गणित का हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। यह न केवल रोजाना की गतिविधियों में सहायक होता है, बल्कि इससे तर्क शक्ति, अमूर्त चिंतन व कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। यह जीवन को समृद्ध करता है तथा सोच में नये आयाम भी प्रदान करता है। अमूर्त सिद्धांतों के विकास के संघर्ष के दौरान यह विद्यार्थियों को तर्क-वितर्क करने और उन्हें समझने की शक्ति प्रदान करता है तथा विभिन्न अवधारणाओं में अन्तः संबंधों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यह विकसित समझ हमें अन्य विषयों में भी अमूर्त विचारों के साथ कार्य करने में सहायक होती है। यह समझ हमें पैटर्नों और मानचित्रों को समझने और बेहतर उपयोग करने, आकार व मापों की सराहना करने तथा ठोस आकृतियों में समानताओं का अवलोकन करने में भी सहायक होती है।

एन.सी.एफ.-2005 के अनुसार, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य दैनिक जीवन की कई समस्याओं को समझने तथा उन्हें हल करने के लिए तरीके प्रदान करना है। अंकगणित से बीजगणित की ओर संक्रमण इसका एक उदाहरण है। प्राथमिक स्तर पर प्राप्त की गई दक्षताओं तथा अवधारणाओं का दृढ़ीकरण (*Consolidation*) भी इस स्तर पर होना आवश्यक है। लेकिन इसमें बच्चों की रुचि को जोड़ना तथा समस्याओं के हल करने में सफलता का भाव प्रदान करना महत्वपूर्ण है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित एक मुख्य चुनौती है। इसकी दोहरी प्रकृति, एक जीवन के अनुभवों के अत्याधिक समीप होना तथा दूसरी अमूर्तता से निपटना। बच्चे प्रायः केवल विचारों के संदर्भ में काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। उन्हें उनके जीवन से जुड़े हुए अनुभवों और परिस्थितियों के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ताकि वे उन विचारों का अर्थ निकाल सकें। इस स्तर पर हमारे सम्मुख एक चुनौती है कि बच्चों को किस प्रकार उनके संदर्भ से जोड़ते हुए धीरे-धीरे इस निर्भरता से दूर करें। ताकि किसी विशेष परिस्थिति में उपस्थित सिद्धांतों की पहचान करने में सक्षमता के साथ-साथ वे केवल उस परिस्थिति पर निर्भर या परिस्थिति तक ही सीमित न रह जाए। जब बच्चे माध्यमिक विद्यालयों में आगे बढ़ेंगे, तो अति आवश्यक हो जाता है कि बच्चा इन सिद्धांतों का नये संदर्भों में प्रयोग कर पाने में सक्षम हो सके।

गणित सीखना, न सिर्फ प्रणालियों का प्रयोग, सही उत्तर निकालना और सही तरीके का प्रयोग है, बल्कि पैटर्न को पहचानना व उनके बीच तर्क पूर्ण संबंधों का पता लगाना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणितीय कक्षाओं को निम्न बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये—

- ◆ बच्चे को यह बोध कराने में मदद करें कि गणित एक विषय के रूप में हमारे अनुभव से जुड़ा है तथा दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है, परन्तु यह अमूर्तता पर आधारित है।
- ◆ बच्चों द्वारा सही नियमों की प्रणाली का प्रयोग कैसे किया जाए पढ़ाने पर जोर न देकर बच्चों में गणित की समझ विकसित करने व समस्याओं को सुलझाने के लिए विभिन्न तरीकों के उपयोग पर जोर देना चाहिए।
- ◆ भाषा को भी एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए क्योंकि भाषा गणितीय समझ को विकसित करने में मदद करती है।
- ◆ बच्चों को पर्याप्त अवसर प्रदान करें ताकि वे गणितीय अवधारणाओं के विषय में अपनी समझ विकसित कर सकें।
- ◆ कक्षा में की जाने वाली प्रक्रियाओं में प्रणालियों और तथ्यों को याद रखने पर ज्ञोर न देकर बच्चों के तार्किक स्तरों और बच्चों द्वारा दिए गए तर्क को समझने व विकसित करने पर ज्ञोर दिया जाए।
- ◆ गणित की कक्षा प्रत्येक बच्चे को आत्म विश्वासी तथा गणितीय सोच में सक्षम बनाए क्योंकि यही गणित शिक्षण का मूल आधार है।

बच्चों को निम्नलिखित क्षमताओं के अनुसार आंका जाना चाहिए—

- ◆ गणितीय तथ्यों व व्यापकीकरण का उपयोग व उनके लिए तर्क प्रस्तुत करना।
- ◆ गणितीय कथनों की सत्यता व असत्यता पर तर्क प्रस्तुत करना।
- ◆ गणित की अलग-अलग शाखाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, आंकड़ों का रखरखाव क्षेत्रमिति इत्यादि की मूलस्वरूप में समझ।
- ◆ अमूर्तता को समझना व विभिन्न तरीकों से उपयोग करना।
- ◆ सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं को अलग ढंग से व नई परिस्थितियों में उपयोग कर पाना।

गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन



गणित में बहुत-सी अवधारणा अमूर्त हैं। इन्हें बच्चों के लिए किस प्रकार से अर्थपूर्ण बनाया जाए, यह अध्यापकों के लिए लगातार एक चुनौती होती है। प्रारंभिक स्तर पर, जहाँ पर बच्चे अभी तक अपनी समझ से अमूर्तता दर्शने के लिए पूरी तरह से सक्षम नहीं हुए हैं, गणितीय अवधारणाओं को कई तरीकों से पढ़ाना अर्थपूर्ण लगता है। गणितीय विचारों को मूर्त सामग्रियों द्वारा दर्शाए जाने पर बल दिए जाने की आवश्यकता है। यहाँ पर आगे बढ़ते रहने की यानि बहुआयामी विधियों की ओर बदलाव की आवश्यकता है, जिसमें बोलचाल की भाषा, मूर्त सामग्री, चित्र, वास्तविक जीवन संदर्भ और लिखित चिह्नों का उपयोग शामिल है। ऐसी सारी युक्तियाँ गणितीय सोच को विकसित करने में सहायक होंगी। आकलन की योजनाओं को समझने के लिए, जिनको सीखने के साथ-साथ नियोजित किया जा सकता है, कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं। यह अनुकरणीय सामग्री अध्यापकों को कक्षा के वातावरण में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी जहाँ पर आकलन को सीखने की प्रक्रियाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है।

## 2.1 सतत आकलन के उदाहरण

हम सीखने-सिखाने की स्थितियों से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिससे कि आपको यह देखने में सहायता मिले कि अध्यापन के समय सतत आकलन कैसे किया जा सकता है आपसे निवेदन है कि आप यह ध्यान रखें कि ये उदाहरण, अच्छा शिक्षण कैसे किया जा सकता है, दर्शने के लिए नहीं हैं। अच्छा शिक्षण बहुत से तरीकों से किया जा सकता है और कोई एक शिक्षण विधि सबसे अच्छी नहीं कही जा सकती है। उदाहरणों का बच्चों के संज्ञान स्तर और पाठ्य क्रम के अनुसार भी होना आवश्यक है। ये केवल, यह दिखाने के लिए हैं कि किस प्रकार आकलन, अध्यापन के साथ-साथ चल सकता है। यहाँ हमने अध्यापक की सोच, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों को भी दर्शाया गया है।

यह बात महत्वपूर्ण व ध्यान देने योग्य है कि एक अध्यापक ज्यादातर उन सब बातों का आकलन करेगा जो उसको लगता है कि उसके शिक्षण द्वारा बच्चे सीख गए होंगे। पढ़ाने से पूर्व, अध्यापक के लिए यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों से पाठ या शिक्षण द्वारा क्या सीखने की आशा है। हर उदाहरण में, हमने ऐसा दर्शने का प्रयत्न किया है।

### उदाहरण 1

#### चर्चा बिन्दु: क्षेत्रफल एवं परिधि

**आवश्यक सामग्री:**

ऐसे कागज़ जिन पर वर्ग रेखांकित हो, कैंची, गोंद

**समय:** कम से कम एक साथ दो कालांश

(1) ज्यामितिय आकृतियों, विशेषकर आयत के क्षेत्रफल और परिधि (परिमाप) की समझ का आकलन करना।

(2) विद्यार्थियों में यह अनुभूति लाना कि समान क्षेत्रफल वाले आयतों की परिधि (परिमाप) असमान हो सकती है।

#### कक्षा - छ:

गतिविधि/कार्य की शुरुआत करने से पहले, शिक्षक ने सीखने सिखाने का वातावरण बनाने के लिए छात्रों से उनके अधिगम अनुभव संबंधी प्रश्न पूछें, जैसे कि,

- ◆ क्षेत्रफल क्या है?
- ◆ आयत का क्षेत्रफल आप कैसे पता लगायेंगे?



- ◆ किसी आकृति की परिधि या परिमाप क्या होती है?
- ◆ किसी आयत की परिधि (परिमाप) क्या होगी?
- ◆ क्या क्षेत्रफल व परिधि में कोई आपसी संबंध है?

यह सुनिश्चित हो जाने के बाद कि, विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिधि की गणना से छात्र भली भांति परिचित है, शिक्षक ने समूहों में यह गतिविधि करने का निश्चय किया।

### कार्य

शिक्षक कक्षा को चार चार बच्चों के समूह में बांटेगा। किए जाने वाले कार्य का व्योरा शिक्षक देगा, जैसे कि, प्रत्येक समूह दिए गये वर्गांकित कागज से 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल के जितने भी संभव आयत है बनाएगा। वर्गांकित कागज से सभी संभव आयत काटने के बाद, प्रत्येक आयत की परिधि ज्ञात करेगा, और यह पता लगायेगा कि अधिकतम परिधि किस आयत की है।

एक बार सभी छात्रों को कार्य का विवरण समझाने के बाद शिक्षक छात्रों के प्रश्नों पर ध्यान देगा, जैसे कि, हम “आयत के क्षेत्रफल की जांच कैसे करेंगे?” शिक्षक अन्य छात्रों को कुछ प्रश्नों का जबाब देने की अनुमति दे सकते हैं और अतिरिक्त प्रश्न पूँछ कर उनके संदेहों का निवारण भी कर सकते हैं। समस्त जिज्ञासाओं के समाधान के बाद समूह कार्य प्रारंभ होता है। अब जबकि छात्र दिए गये कार्य को करने में व्यस्त हैं, शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूहों का अवलोकन करता हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर निम्न बिंदुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है व लिखता है।

1. कार्य के बारे में समूह में चर्चा।
2. कार्य कैसे किया जाए संबंधी निर्णय।
3. 24 वर्ग इकाई के क्षेत्रफल वाले संभावित विभिन्न आयतों को ढूँढने/बनाने का तरीका/तरीके।
4. समूह के सदस्यों का एक दूसरे से सीखना।
5. समूह के कार्य करने का तरीका-निर्णय पर पहुँचना, इकट्ठे काम करना और एक दूसरे की मदद करना।

ये सारे अवलोकन बिन्दु सतत आकलन का हिस्सा बनेंगे।

जब भी कोई समूह किसी कार्य पर अटक जाता है, तो शिक्षक उन्हें केवल कुछ संकेत/सुझाव देता है, ताकि वे कार्य के लिए आवश्यक तरीके स्वयं सोच सकें। जैसे-जैसे समूह कार्य आगे बढ़ता है, वैसे-वैसे किए जा रहे कार्य पर अन्य प्रश्न सामने आते हैं, जैसे कि काटे गए आयत का क्षेत्रफल व परिधि (परिमाप) कैसे लिखें।

**छात्र:** हमने आयत काट लिये हैं। अब हम परिधि (परिमाप) कैसे लिखें। शिक्षक अन्य समूहों को उनका अपना तरीका बताने और दिखाने की अनुमति देते हैं कि उन्होंने यह कैसे किया।

**अन्य छात्र:** हमने तो परिधि और क्षेत्रफल को आयत के ऊपर लिख दिया है। इस तरह से शिक्षक छात्रों के अनुभवों पर आधारित समस्या समाधान को प्रोत्साहित करते हैं।

आखिर में छात्र कार्य पूरा कर लेते हैं और ज्यादातर समूह शिक्षक को बताते हैं कि उन्होंने

गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन



काम पूरा कर लिया है। शिक्षक प्रत्येक समूह को आर्मित करता है कि वह कक्षा के सामने अपने कार्य को प्रस्तुत करें। कार्य प्रस्तुति के लिए, शिक्षक समूह के प्रत्येक सदस्य को प्रस्तुति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षक ऐसे प्रश्न करता है जो छात्रों की समझ और उनके कार्य को और अच्छे से आकलन करने में उनकी मदद करे। शिक्षक अन्य छात्रों को भी प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संभावित आयतों की संख्या जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और क्यों?	शिक्षक उत्तरों का सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं, और अन्य समूहों को चर्चा में भाग लेने की अनुमति दे सकते हैं।
---	---

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>क्या सभी आयतों की परिधि समान है?</li> </ul>                        |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले किस आयत की परिधि अधिकतम है?</li> </ul> |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ऐसा क्यों है?</li> </ul>   |  |

**सहपाठी आकलन के लिए अन्य समूह से :** इस समय शिक्षक अन्य समूहों को उत्तर देने की अनुमति देती है। (24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल के संभावित आयतों की संख्या पर एक लघु चर्चा हो सकती है)।

क्षेत्रफल तथा परिधि के बीच के संबंधों और क्षेत्रफल एवं परिधि की अवधारणाओं की समझ और इस समझ को नई परिस्थिति में लागू करने की बच्चों की क्षमताओं के अधिक गहराई से जानने में यह आकलन शिक्षक की मदद करेगा।

प्रश्न	उत्तरों का आकलन (अधिगम के लिए आकलन)
आपके द्वारा काटे गये प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल क्या है?	यह जाँचना कि छात्रा दिया गया कार्य समझ पाए हैं या नहीं।
सभी आयतों में आपने क्षेत्रफल को समान कैसे रखा?	जबाब स्पष्ट रूप से दर्शायेगा कि समान क्षेत्रफल के विभिन्न आयतों को बनाने के लिए समूह ने कौन सा तरीका अपनाया।
आपका समूह समान क्षेत्रफल के कितने आयतों को काट सका? (जैसे कि 24 वर्ग इकाई)	यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को सही जानकारी मिली है और उन्होंने सभी संभावनाओं की जांच कर ली है।
क्या आप बिना बनाए, 24 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयतों के बारे में सोच पाते हैं? यह कैसे किया?	यदि विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर नहीं सोच पाते हैं तो अध्यापक उन्हें यह पूछकर संकेत दे सकते हैं कि क्या 24 के गुणनखंड यहाँ पर कुछ मदद कर सकते हैं।

## उदाहरण -II

### विषय - रैखिक समीकरण

कक्षा : VII

**पूर्व ज्ञान:** बीजीय व्यंजक, बराबरी का चिन्ह, समीकरण, शब्द समस्याओं को रैखिक समीकरण में बदलना और इसका उलटा।

**उद्देश्य:** आकलन करना कि क्या छात्र शब्द समस्याओं को उनके रैखिक समीकरणों में बदल सकते हैं।



## समझ के लिए अधिगम स्थिति का निर्माण

रमा गणित की शिक्षिका हैं। वह कक्षा 7 को बीजगणित पढ़ाती हैं। उन्होंने निम्न समस्या श्यामपट्ट पर लिखीं।

‘राघव के दादाजी की आयु 60 वर्ष है, जो कि राघव की उम्र के आठ गुना से चार अधिक है। राघव की उम्र क्या है?’

शिक्षिका छात्रों द्वारा सीखी हुई अवधारणाओं के अधिगम स्तर तथा उनके पूर्व ज्ञान का आकलन करना चाहती है। साथ ही वैयक्तिक और विशेष आवश्यकता, यदि कोई है, तो उसको भी पहचानना चाहती है। ऐसा वह चर्चा के माध्यम से करना चाहती है।

उन्होंने छात्रों से प्रश्न पूछे, जैसे कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? ‘यह किसी समीकरण से कैसे भिन्न होते हैं?’ ‘आप, X में से 7 घटाने पर यह 10 के बराबर हो जाता है, को गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे?’ उन्होंने छात्रों को इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया।

जब छात्र इस कार्य को करने में व्यस्त थे तो शिक्षिका ने अवलोकन किया कि ‘कौन गंभीरता से उत्तर खोजने का प्रयास कर रहा है?’ ‘क्या वह किसी सामग्री की मदद ले रहा है?’ ‘क्या वह अपनी किसी दोस्त से चर्चा करके उससे उत्तर पाने का प्रयत्न कर रही है?’ इत्यादि कार्य

शिक्षिका ने कक्षा में निम्न चर्चा कराई। दायें ओर शिक्षक और छात्रों के दृष्टिकोण का सार दिया गया है।

- ◆ चर्चा के दौरान शिक्षिका ने पाया कि ज्यादातर छात्र हालांकि जानते हैं कि समीकरण क्या है, लेकिन कुछ को शब्द समस्याओं को समीकरण में बदलने में मदद की जरूरत है। वास्तव में वह छात्रों के उत्तरों के आकलन के दौरान अपने शिक्षण पर भी पुनर्दृष्टि डाल रही थी। समीकरणों का हल करने से पहले शिक्षिका ने कुछ आसान से कथन बच्चों को दिए ताकि वे उन कथनों को अभ्यास के लिए समीकरणों में बदल सकें।

चर्चा	आकलन बिंदु
उन्होंने छात्रों को दी गई समस्या का विश्लेषण करने के लिए कहा। लगभग सभी छात्रों ने उत्तर दिया। (1) दादाजी की उम्र 60 वर्ष है (2) उन्हें राघव की उम्र ज्ञात करनी है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षिका का आकलन था कि लगभग सभी छात्र समस्या में से मुख्य जानकारी निकाल पाए हैं।</li> </ul>
शिक्षिका - राघव की उम्र का कैसे पता लगाया जाए? अमीना : सबसे पहले हमें समस्या को रैखिक समीकरण में बदलना होगा। शिक्षिका : रैखिक समीकरण क्या है?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पूर्व ज्ञान का आकलन</li> </ul>
अमीना (चुप रहती है) राजेश : $60 + 4 = 64$ एक समीकरण है। शिक्षिका : आपको ऐसा क्यों लगता है? राजेश : क्योंकि इसमें बराबर का निशान, संख्या एवं अंकगणितीय संक्रिया है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• शिक्षिका ने महसूस किया कि राजेश को पूर्णतया समझ नहीं आया है और वह रैखिक समीकरण नहीं बना सकता है।</li> </ul>

गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन



<p>भावना : लेकिन इसमें चर राशि तो नहीं है और फिर राघव की उम्र 64 साल तो नहीं हो सकती क्योंकि दादाजी राघव से बड़े हैं।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भावना अपने साथी की गलतियों को सुधार रही थी।</li> </ul>
<p>शिक्षिका : चर से आपका क्या मतलब है?</p> <p>भावना : अंग्रेजी के उस अक्षर का उपयोग जो किसी अनजान मूल्य के लिए प्रयुक्त हुआ हो। यहां राघव के उम्र का पता नहीं है इसलिए इसे x के रूप में लिया जा सकता है।</p>	
<p>अधिकतर बच्चे भावना से सहमत थे।</p> <p>शिक्षक (राजेश से) : क्या तुम अपना समीकरण ठीक कर सकते हो?</p> <p>राजेश: कोई उत्तर नहीं</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• भावना के पूर्व ज्ञान का आकलन</li> </ul>
<p>सुधीर: यह है <math>x + 4 = 60</math></p> <p>शिक्षक: ध्यानपूर्वक पढ़िये, क्या इस शब्द समस्या में कोई और सूचना दी गई है?</p> <p>भावना: हाँ, है। इसमें बताया गया है, राघव की आयु से आठ गुणा।</p> <p>सुधीर: इसलिए समीकरण बनेगा</p> $x + 4 \times 8 = 60$	<ul style="list-style-type: none"> <li>• यह देखने की कोशिश करना कि कैसे छात्रों ने उत्तर चुना और साथियों से मिली प्रतिक्रिया के अनुसार अपने उत्तर में परिवर्तन करना।</li> </ul>
<p>शिक्षक : आप ऐसा क्यों सोचते हो?</p> <p>सुधीर: क्योंकि यह समानता का चिन्ह है, अंकों, अंकगणितीय संक्रिया एक चर के साथ है।</p> <p>उसने फिर कहा: मैंने प्रश्न में दिये गए अंकों के अनुक्रम को समझा।</p> <p>शिक्षक: क्या आप बता सकते हो कैसे?</p> <p>सुधीर – प्रश्न में ‘4’ पहले स्थान पर लिखा है, इसलिए उसने समीकरण में पहले 4 को जोड़ा क्योंकि ‘आठ गुणा’ बाद में आता है, इसलिए उसने आठ से बाद में गुणा किया।</p> <p>पूजा : नहीं, यह ऐसे होगा <math>x + 4 + 8 = 60</math></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• छात्रों को सही उत्तर ढूँढ़ने में मदद करना।</li> </ul>
<p>शिक्षक (दोनों से) : ठीक हैं, अब अपने समीकरण को शब्द समस्या में बदलो और देखो क्या यह इस प्रश्न से मेल खाता है जो मैंने आपको दिया।</p> <p>सुधीर : (कुछ रुककर) : मैं राघव की आयु को <math>4 \times 8</math> में जोड़ रहा हूँ।</p> <p>पूजा : मेरे विचार से यह <math>4 + x + 8 = 60</math> होगा।</p> <p>शिक्षक : अपने समीकरण को शाब्दिक रूप से लिखने का प्रयास करो और जाँच करो।</p> <p>पूजा : (कोई उत्तर नहीं)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गलतियों का विश्लेषण करना जिससे सीखने में तर्क व गलतफहमियों का पता लगाया जा सके।</li> <li>• छात्रों को उनके उत्तरों का जटिल अन्वेषण करने के लिए मदद करना।</li> </ul>



शिक्षक: और कौन इसे कर सकता है?

हामिद: मेरे विचार से यह  $4 + x \times 8 = 60$  है।

शिक्षक: अब इसे शाब्दिक रूप से बदल कर जाँच करो।

हामिद: मैं इसमें राघव की आयु के आठ गुणा में चार जमा कर रहा हूँ जो दादा जी की आयु के बराबर है।

- इस दौरान शिक्षक अपनी डायरी में नोट करते हैं कि राजेश, सुधीर, पूजा को शाब्दिक समस्या को समीकरण में बदलने के लिए मदद की आवश्यकता है। साथ ही पूजा को 8 गुणा के अर्थ समझने में भी मदद की आवश्यकता है।
- कितने छात्र समस्या को हल कर सकते हैं, इसका आंकलन करना।



## 2.2 आकलन और अधिगम

एक इकाई अथवा पाठ की समाप्ति के बाद, इस तरह की तकनीक का उपयोग करते हुए शिक्षक एक कार्य, जैसे कि गतिविधि, मौखिक परीक्षा, क्विज अथवा लिखित परीक्षा का चयन यह जानने के लिए कर सकते हैं कि बच्चे ने उस अवधारणा के बारे में क्या सीखा। इसका प्रयोग बच्चों की विशेषताओं एवं अधिगम स्तर में कमी के औपचारिक आलेख के लिए भी हो सकता है। औपचारिक आलेख का विवरण व इसे किस प्रकार से करना है सेक्षण 3 में दिया गया है।

आकलन को समझने के लिए निम्न पक्षों पर ध्यान देना भी आवश्यक है।

### • अधिगम का आकलन

अधिगम का आकलन वह विधि है जो हमें विद्यार्थियों द्वारा सीखें गए ज्ञान, कौशल व अभिवृत्ति का विवरण बताने में सहायता करता है। यह विधि अध्यापक केन्द्रित है तथा इसमें विद्यार्थियों की भूमिका नगण्य है। अध्यापक सीखने-सिखाने की गतिविधियाँ का निर्माण करता है व सीखने की प्रक्रिया के दौरान प्रमाण इकट्ठे करता है। अन्ततः अध्यापक इस बात का निर्णय करता है कि विद्यार्थियों द्वारा क्या सीख लिया गया है तथा क्या सीखना बाकी है।

### • अधिगम के लिए आकलन

अधिगम के लिए आकलन प्राथमिक रूप से विद्यार्थियों द्वारा अध्यापकों के निर्देशन तथा सहयोग में किया जाता है। इसे रचनात्मक आकलन के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी को उपयोगी सुझाव देने पर अधिक बल है और अंक और ग्रेड देने पर कम बल है। आधारभूत रूप से अध्यापक सीखने की प्रक्रिया और आकलन का निर्माण करता है ताकि विद्यार्थी को सीखने की प्रतिपुष्टि की जा सके। अन्ततः अध्यापक यह निर्णय लेता है कि क्या सीखा जा चुका है और क्या बाकी है; विद्यार्थी को भी यह अन्तर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि अभी क्या सीखना बाकी है।

### • आकलन अधिगम के रूप में

यह निदान आधारित आकलन से जुड़ा है व इसका निर्माण मूलतः सहपाठी द्वारा अधिगम पर बल देने पर है। आकलन के इस रूप में स्वयं आकलन व सहपाठी आकलन के बहुत

गणित की कक्षा में सतत व व्यापक मूल्यांकन



सारे अवसर प्राप्त होते हैं। इस विधि में अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, आकलन और सीखने की प्रगति का प्रारूप बनाते हैं।

अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन की गतिविधियाँ को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना चाहिए ताकि ये पारस्परिक प्रतिपुष्टि का श्रोत बन सके व विद्यार्थियों को दोबारा सोचने व दोबारा सीखने का अवसर मिल सके।

#### • अधिगम में आकलन

अधिगम में आकलन खोज या प्रश्न पूछने को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के केन्द्र में रखता है। यह अध्यापन के केन्द्र बिन्दु को सही उत्तर से हटाकर सोचने पर बाध्य करने वाले प्रश्नों की ओर मोड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में विद्यार्थी, जो कि अधिगम के केन्द्र पर है, स्वयं अधिगम का परिवेक्षण व आकलन करता है और उस पर विचार करता है तथा अध्यापक एक मार्गदर्शक और सलाहकार के रूप में कार्य करता है।



# 3



## सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व

- ◆ यह आवश्यक नहीं है कि सतत आकलन अधिगम स्थिति से अलग अथवा कोई भिन्न गतिविधि हो। सामान्य तौर पर यह एक ऐसी गतिविधि है जिससे कक्षा के प्रवाह में कोई गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। यह तो अधिगम में अंतर्निहित उसका ही एक अभिन्न हिस्सा है।
- ◆ आकलन का संपूर्ण विचार तो छात्रों को अच्छी तरह सीखने में मदद देने का है। यहाँ आकलन “छात्रों ने कितना और क्या सीखा है” के साथ-साथ अध्यापक द्वारा प्रयोग की गई शिक्षण विधि का भी है।
- ◆ यदि शिक्षक बच्चों के उत्तरों को महसूस करने में पर्याप्त समय देता/ती है तो उसके पास अपने हर छात्र की अधिगम संबंधी दैनिक व्यवहारों का अच्छा खासा संग्रह हो जायेगा। इस प्रकार से सतत आकलन कोई एक वक्त/क्षण की गतिविधि नहीं है जो कुछ घटों अथवा दिनों में पूरी की जा सके।
- ◆ सतत आकलन चाहता है कि शिक्षण का उद्देश्य हो छात्रों की सीखने में वास्तविक मदद की जाए ना कि कुछ विषय मात्र का हस्तांतरण छात्रों को कर दिया जाए जिसे छात्र किसी भी तरह से परीक्षा में पुनः उत्पन्न कर सके, जो कि अक्सर भली भांति न समझी गई, विषय सामग्री को केवल रट कर भी किया जाता है।

- ◆ सतत आकलन के लिए प्रत्येक अधिगम स्थिति का विस्तृत और महीन/बारीक कसौटी (जिसे कभी कभी अधिगम सूचक भी कहा जाता है) शिक्षक को किसी ऐसी बाह्य संस्था जिसका अधिगम स्थिति से सीधा संबंध नहीं है, द्वारा देना संभव नहीं है क्योंकि जो भी उत्तर अथवा परिस्थिति है वह तो केवल शिक्षक ही परख सकता है।
- ◆ यदि गतिविधि में पूरी कक्षा शामिल है, चर्चा अथवा प्रयोग के माध्यम से, तो आकलन प्रक्रिया में, एक के बाद एक बच्चे का क्रमबद्ध अवलोकन सम्मिलित नहीं होगा। इस प्रकार से शिक्षक छात्रों को परीक्षा से भयभीत किये बिना ही उनका आकलन कर सकते हैं।
- ◆ सतत आकलन के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षक छात्रों का आदर करे। आदर से हमारा तात्पर्य/मतलब है कि शिक्षक यह विश्वास करे कि यदि उचित परिस्थितियों का निर्माण किया जा सके तो प्रत्येक बच्चा निरंतर विकसित हो सकता है और यह भी हर बच्चे में स्वाभाविक सीखने की इच्छा एवं क्षमता होती है। जरूरी है कि शिक्षक छात्रों को अपने अधिगम पर विचार करने के लिए और साथियों द्वारा दी गई व्याख्या एवं कारणों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि वह खुद का आकलन कर सके। यदि कोई बच्चा अथवा कक्षा किसी शिक्षण पद्धति या तकनीक पर अपेक्षित उत्तर नहीं दे रही है तो आवश्यक है कि शिक्षक छात्र अथवा छात्रों को दोषी ठहराने की बजाए अपनी तकनीक को बदले।
- ◆ सतत आकलन केवल ऐसे भयहीन स्थिति में सफल हो सकता है, जहाँ छात्रों को निरंतर जांच परख का डर ना हो। डर से मुक्त हो कर, छात्र अपनी प्रगति का प्रतिवेदन(रिपोर्ट) दे सकते हैं, अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, और शिक्षक से प्रश्न पूछ कर उसे अपने सीखने अथवा ना सीख पाने का प्रमाण दे सकते हैं। कुछ हद तक वह खुद के सीखने (अधिगम) के साथ साथ, एक दूसरे के सीखने में मदद भी कर सकते हैं।

### टिप्पणी देना

सतत आकलन में नियमित रूप से छात्रों के कार्य पर ग्रेड अथवा अंक देने का सुझाव नहीं है क्योंकि ऐसा करने का अर्थ है कि किसी एक समय पर (जैसा कि परीक्षा में किया जाता है) छात्रों के अधिगम (सीखने) को मूल्य देना जबकि छात्रों की समझ तो निरंतर विकसित होती रहती है। यह तो अधिगम में सुधार के लिए सहायक भी नहीं है। शिक्षण के बीच में अधिगम आकलन के लिए शिक्षक कार्य, प्रश्नों, लघु प्रश्नोत्तरी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल छात्रों को सहायता और प्रतिपुष्टि (Feedback) देना ही होना चाहिए। ऐसा सुझाव है कि नियमित प्रतिपुष्टि में कोई अंक अथवा ग्रेड ना दिए जाए। इसके बजाए बच्चे को शिक्षक से केवल सुझाव मिलने चाहिए ताकि वह देख सके कि उसे कहाँ किस क्षेत्र में अधिक मेहनत अथवा ध्यान करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए “आपको अपने आंकड़े फिर से देखने की जरूरत है। आप अपने सहपाठियों के कार्य को भी देख सकते हैं ताकि यह पता चल जाए कि आप कुछ गलती कर रहे हैं।” “आपका निष्कर्ष सही है, पर आपने यह दर्शाया नहीं कि आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे।” (इसे कहते हैं केवल टिप्पणी द्वारा अंक देना) वास्तव में यह बच्चे की मदद करता है यह समझने में कि उसने क्या अच्छा किया है और उसे कहाँ सुधार की ज़रूरत है।



## स्व-आकलन के लिए अवसर देना

किसी छात्र को, बुद्धिमान और विचारशील मानव के रूप में आदर देने का एक तरीका है, उसे खुद के अधिगम (सीखने) का आकलन करने का अवसर देना। छात्रों को उनके स्वयं के अधिगम (सीखने) की जिम्मेदारी कभी ना देकर हम उनके साथ बहुत अन्याय करते हैं। लेकिन स्वयं की प्रगति का असली आकलन तो केवल तभी हो सकता है जब व्यक्ति भय और दबाव से संपूर्णतया मुक्त हो। हमें एक ऐसी स्थिति तक पहुँचने का प्रयास करना होगा, जहाँ कोई भी बच्चा बिना किसी डर, शर्म अथवा स्वयं के ठिगने प्रतिबिंब(reduced self image) के बिना विश्वास के साथ शिक्षक को कह सके “मुझे यह अवधारणा ठीक से समझ नहीं आई है। क्या आप इसे अच्छी तरह समझने में मेरी मदद कर सकते हैं?” अथवा कुछ इसी प्रकार के विश्वास के साथ कह सके, “मुझे लगता है कि मैंने इसे अच्छी तरह सीख लिया है, इतनी अच्छी तरह कि मैं इसे अपने कक्षा के साथियों को भी समझा सकता हूँ।”

**बच्चे के अधिगम का आकलन करने के लिए शिक्षक को क्या अवलोकन करना चाहिए?**

जब कक्षा में बहुत से छात्र हो तो आपको उनका आकलन करने के लिए स्चनात्मक तरीके खोजने होगे। अच्छी तरह से बनाई गई कार्य पत्रिकाएं, खुली पुस्तक आधारित चुनौतिपूर्ण कार्य योजनाएँ और उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त समय (उदाहरण स्वरूप ग्रहकार्य के रूप में), वर्यैक्तिक अथवा सामूहिक ऐसी परियोजनाएँ जहाँ काम की गुणवत्ता से छात्रों के प्रयासों और उपलब्धि का पता चले-यह सब उत्साहित करने वाली संभावनायें हैं। यदि आप प्रचलित परीक्षाओं अथवा परीक्षा पत्रों को देखें तो पायेंगे कि यह तो इस सब के विपरीत है। ज्यादातर तो खराब नमूने क्रियान्वयन और समझदारी के बजाए स्मृति पर झोर देने वाले, बंद पुस्तक वाले और समय की सीमाओं में उपलब्धि का परीक्षण करने वाले हैं। बाहरी परीक्षा बोर्डों द्वारा संचालित परीक्षाओं में यह सब (बेकार डिजाइन को छोड़कर) होता है, शायद यह बड़ी व्यवस्था की सीमा है। लेकिन शिक्षक अथवा विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली कक्षा कक्ष की परीक्षायें तो इन सीमाओं से मुक्त हो ही सकती हैं। अपने छात्रों को अच्छे से जानने का एक और सरल तरीका है, प्रतिदिन चाहे थोड़े ही समय के लिए चर्चा और संवाद की अनुमति देना। चर्चा इस से हटकर भी हो सकती है कि इस हफ्ते कक्षा में क्या कराया गया। यह कोई मौखिक परीक्षा तो नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो यह तो छात्रों के लिए तनाव का स्रोत हो जायेगा। इसके पीछे सोच यह है कि छात्रों की मौखिक परीक्षा ना ली जाय जिससे उनको तनाव हो। मुख्य विषय के आसपास इस चर्चा को स्वतंत्र रखा जा सकता है, ताकि सभी छात्रों से वैध उत्तर मिल सके, हालांकि इस प्रक्रिया में भी सभी को अपनी बात रखने का अवसर शायद ना मिले। समय के साथ, चुप रहने वाले छात्रों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि वे भी कुछ प्रश्न पूछ सकें। जल्द ही आप यह समझ लेंगे कि हर बच्चा कहाँ है और यह आपकी विस्तृत रिपोर्ट को समृद्ध ही करेगा। ध्यान देने वाला मुद्दा है कि अपने छात्रों से सही उत्तर मात्र लेने के अलावा भी उनके कई क्षमतायें और आयाम हैं और शिक्षक होने के नाते आपको इनका पता लगाने के तरीके खोजने होंगे। विषय का आनन्द उठाना, योग्यता की स्वयं जानकारी, मौखिक सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व



अभिव्यक्ति, दूसरों को समझाना, धैर्यपूर्वक समस्या हल करना, कक्षा कक्ष में व्यवहार इन सभी आयामों पर प्रतिवेदन छात्र की तस्वीर में बहुत सारी संपन्नता/संपूर्णता ला सकती है। तुलनात्मक मूल्यांकन की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है हालांकि जब भी आप किसी भी चीज का आकलन करते हो तो आपके मन में हमेशा एक ‘मानक’ रहता है। यहीं तो अंतर है उसमें जिसे हम नियमाधारित “(norm referenced) और कसौटी आधारित” (criterion referenced) परीक्षण कहते हैं। क्या हम कोई कसौटी विकसित कर सकते हैं (पूर्व निर्धारित नियम के बजाए) जिससे तुलना करके हम छात्रों का मूल्यांकन कर सकें ताकि हमें यह ना कहना पड़े कि, “वह गणित में अपनी कक्षा के 54% छात्रों से बेहतर है,” क्योंकि ऐसा कह देना बहुत उपयोगी नहीं होगा। निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं।

(उदाहरण लिया गया है, An Approach to Assessment and Reporting, Kamala V. Mukunda, India Education review, <http://www.indiaeducationreview.com/article/guest-article-approach-assessment -and -reporting- dr. kamala-mukunda- teacher-centre -learning>)

शिक्षक निम्न में से कुछ का उपयोग संरचनात्मक आंकलन के लिए कर सकती है:

- ◆ शिक्षकों/सहपाठियों द्वारा पूछे प्रश्नों पर छात्रों द्वारा अपने उत्तरों (मौखिक अथवा लिखित) पर प्रश्न उठाना
- ◆ छात्रों का लिखित कार्य, कार्य पुस्तिकार्यों, पोर्टफोलियो (छात्र विशेष द्वारा बनाई गई चीजों का संग्रह), और उनका संवाद कौशल
- ◆ छात्रों द्वारा बनाए गए चार्ट, ग्राफ, मोडल, इत्यादि
- ◆ शिक्षक की बनाई गई ड्राइंग अथवा छात्रों की राय जानने के लिए अन्य बनी ड्राइंग का उपयोग/(उदाहरण के लिए, दर्शाई गई कौन सी परिस्थिति सही है ?)
- ◆ समूह में कार्य करते बच्चों का शिक्षक द्वारा अवलोकन (साझेदारी और सहयोग का अवलोकन)
- ◆ वैयक्तिक रूप से कार्य करते बच्चे का अवलोकन (रूचि और एकाग्रता का अवलोकन)
- ◆ शिक्षक द्वारा परियोजनाओं पर कार्य करते बच्चों का अवलोकन (भागीदारी का अवलोकन)
- ◆ छात्रों द्वारा अनुभवों, अवलोकनों, प्रश्नों, अनुमान, धारणाओं व तर्कों को साझा करना
- ◆ छात्रों द्वारा गतिविधि निर्माण अथवा शिक्षक की दी हुई गतिविधि का विकल्प सोचना
- ◆ किये गये प्रयोग/गतिविधि/स्थिति में कुछ छोटा सा बदलाव करके, (यहाँ तक कि किसी काल्पनिक स्थिति जैसे कि कोई सोचा हुआ प्रयोग) छात्रों की प्रतिक्रिया मांगना
- ◆ क्या किसी छात्र में आत्म विश्वास है कि नहीं(भागीदारी के लिए सामने नहीं आना)
- ◆ कक्षा की उत्तरदायिता, क्रियाशीलता(समझदारी के स्तर को दर्शाता है अथवा विषय के साथ उनके वर्तमान जुड़ाव को दर्शाता है)

कृपया ध्यान दें कि इनमें से एक अथवा अधिक किसी एक स्थिति में ज्यादा उचित हो। सभी को प्रत्येक स्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी चिंतन और दूसरों से चर्चा करने में मदद करेंगे:



- ◆ क्या मेरे बच्चे दत्त कार्य में पूरी तरह लगे हुए हैं? क्या वे सब सही प्रकार से सीख पा रहे हैं? यदि नहीं तो उनका स्तर क्या है?
- ◆ क्या मैं बच्चों की भिन्न एवं बदलती आवश्यकताओं को समझ पा रहा/रही हूँ? यदि हां तो मैं इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या कर सकती/ता हूँ?
- ◆ क्या कुछ बच्चे हैं जो सीखने के प्रथम स्तर तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं? इनको प्रोत्साहित और सम्मिलित करने के लिए मैं क्या कर सकता/ती हूँ?
- ◆ मैं अपनी शिक्षण विधि को कैसे सुधारूँ ताकि बच्चे अगले स्तर पर पहुँच सकें?
- ◆ मैं बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता/ती हूँ?
- ◆ मुझे कहाँ कठिनाई आ रही है(उदाहरण के लिए बच्चों का समूह बनाने में, उनके स्तर अनुरूप गतिविधि चुनने में, सामग्री की कमी अथवा अनुपयुक्त सामग्री)?
- ◆ मुझे और किस तरह की मदद की आवश्यकता है? इस प्रकार की मदद मुझे कौन दे सकता है (शिक्षा से जुड़े लोग, अभिभावक, समुदाय, अन्य शिक्षक)?
- ◆ शिक्षण-अधिगम कार्यों को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है?

### 3.1 अधिगम का एक कालांश समाप्त होने के बाद का मूल्यांकन

परंपरागत मूल्यांकन व्यवस्था लगभग पूरी तरह से योगात्मक मूल्यांकन पर आधारित है, जिसे सत्रांत परीक्षा, मासिक परीक्षा, और इकाई परीक्षा द्वारा किया जाता है। इन परीक्षाओं का ध्यान इस बात पर होता है कि निश्चित अनुदेशन कालांश में, पूरा किये गये पाठ्यक्रम के निश्चित भाग में, छात्र ने कितनी प्रगति की। इसे योगात्मक कहा जाता था क्योंकि यह अनुदेशन के पूरा होने के बाद होता है, और यह शिक्षण अधिगम की सक्रिय प्रक्रिया से जुड़ा नहीं है।

यहाँ महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि छात्र के अधिगम की जांच, किसी प्रकार के पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर की जाती है, जिन्हें पाठ्यक्रम अथवा अधिगम स्तर अनुरूप अपेक्षाओं अथवा अधिगम कालांश के आधार पर बनाया गया हो। इस प्रक्रिया में बच्चे की उपलब्धि का मूल्य निर्धारण कर उसे प्रगति पत्रक के रूप में बच्चे, अथवा अभिभावक को दे दिया जाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन परंपरागत परीक्षाओं में किया जाता रहा है। सी.सी.ई. की मूल भावना की आवश्यकता है कि इस तरह की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएं।

1. अधिगम की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद योगात्मक मूल्यांकन का सुझाव है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय शिक्षकों से बात/चर्चा करके विद्यालय को ही लेना होगा। अत्याधिक मूल्यांकनों को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों के अधिगम की कमियों को सुधारने और इसकी जांच तो लगातार सतत आकलन के माध्यम से हो ही रही है।
2. अंकों के स्थान पर ग्रेड दिए जायें। अंकों में अक्सर गलत जांच और तुलना की संभावना रहती हैं। 77 अंक पाने वाले छात्र और 70 अंक पाने वाले के अधिगम स्तर में बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, लेकिन इन्हें श्रेणियों में भिन्न रखा जाएगा। एक ही बार ली गई परीक्षा में पूछे कुछ प्रश्नों के आधार पर किसी व्यक्ति के संपूर्ण अधिगम को श्रेणीबद्ध करने की प्रक्रिया में अधिक गलतियों की संभावना हैं। मान लो कि किसी बच्चे ने किसी सी.सी.ई. क्या है और यह क्या नहीं है?



अवधारणा को आधा अधूरा समझा है, और इसी समझ के आधार पर परीक्षा में गलत उत्तर दिया है। उसके गलत उत्तर पर उसे शून्य अंक दे दिए जायेंगे हालांकि उसने अवधारणा को काफी कुछ समझ लिया है।

ग्रेड निम्न तरीके से दिए जा सकते हैं—

बच्चे की शैक्षणिक उपलब्धि को पंच बिंदु पैमाने A+, A, B, C और D पर ग्रेड किया जा सकता है:


**D:** निर्धारित अवधारणाओं/ज्ञान के बारे में बच्चे की मूल समझ कमज़ोर है और उसे अपने अधिगम में सुधार के लिए मदद और अतिरक्ति समय की आवश्यकता है।

**C:** निर्धारित अवधारणाओं/ज्ञान के प्रति बच्चे में मूलभूत समझ विकसित हो गई है, पर अभी भी उसे और काम करने की आवश्यकता है।

**B:** निर्धारित अवधारणाओं और ज्ञान की संतोषजनक समझ बच्चे में है।


**A:** निर्धारित ज्ञान/अवधारणाओं को बच्चे ने बहुत अच्छी तरह से समझा है।

**A+:** इस कालांश में करवाए गये कुछ विषयों के प्रति बच्चे ने अतिरिक्त रूचि, प्रतिभा अथवा रचनात्मकता दर्शायी है।

ग्रेड देते वक्त यदि शिक्षक इस प्रकार की टिप्पणियाँ दे तो यह बहुताधिक उपयोगी होगा। “छात्र की पूर्णांकों की संक्रियाओं की मूल समझ कमज़ोर है और उसे इसमें अतिरिक्त मदद की आवश्यकता है। बच्चे ने रैखिक समीकरणों की बेहद अच्छी समझ का प्रदर्शन किया है।” “क्षेत्रफल और परिधि संबंधी प्रश्नों को हल करने में बच्चे की विशेष रूचि है।” इस प्रकार के कथन ऐसा कहने से तो बेहतर ही हैं कि बच्चा ‘बहुत रचनात्मक है,’ जो शायद अधिगम के सभी आयामों पर लागू भी ना होता हो। इस प्रकार की टिप्पणियों से अन्य शिक्षकों अथवा अभिभावकों को भी मदद मिलेगी कि वे बच्चे की मदद विशिष्ट विषय में विशेष तरीके से करें जैसी उसको ज़रूरत है। इस सबके बिना योगात्मक आकलन केवल निर्णय सुनाने के स्तर तक सिमट कर रह जाता है, जो शायद त्रुटिपूर्ण, पक्षपातपूर्ण अथवा सब पर समान रूप से लागू, जैसे वक्तव्य होते हैं। यदि किसी बच्चे को मोटे तौर पर ‘D’ ग्रेड मात्र दे दिया जाए, उसके बारे में बिना कोई विशिष्ट जानकारी दिए तो यह तो उसे ‘खराब उपलब्धि वाला’ चिन्हित करने जैसा हुआ, जो उसे उसकी शक्तियों/अच्छाइयों पर पुनर्विचार करने के लिए उत्साहित करने में नाकाम होने के साथ साथ उसे अपनी कमज़ोरियों को सुधारने का अवसर भी नहीं देता है। इससे बच्चे के आत्मविश्वास, अधिगम उत्साह और सार्वजनिक छवि पर गंभीर चोट पहुँच सकती हैं। दूसरे हाथ पर, जिस बच्चे को केवल ‘A’ ग्रेड मिला है, उसके संबंध में धारणा बन सकती है कि वह उपलब्धि के हर स्तर पर अच्छा है और इससे शायद वह अति विश्वास की ओर बढ़ जाये। यहाँ यह भी पहचानना महत्वपूर्ण है कि योगात्मक आकलन केवल दिए कालांश के मूल्यांकन तक ही प्रामाणिक रहता है, और ‘अच्छे’ अथवा ‘खराब’ ग्रेड बच्चों के संपूर्ण विकास कालांश तक वैध नहीं रह सकते हैं। उसकी उपलब्धि और अधिगम स्तर में साल भर के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं।



3. अधिगम के लिए सही अर्थों में उपयोग के लिए, योगात्मक मूल्यांकनों (उदाहरण के लिए परीक्षाओं) के परिणाम से पता लगना चाहिए कि अगले स्तर के लिए बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी। इनका परिणामों का उपयोग यदि केवल चिन्हित करने के लिए होगा तो यह तो शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों के एक दम विपरीत हो जायेगा। वर्तमान में अभी ऐसा नहीं हो रहा है, और परीक्षाओं में बच्चों की उपलब्धि को मान लिया जाता है कि अधिगम के एक आयाम का समापन हो गया।
4. जिस कालांश के दौरान हम, योगात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, उस कालांश में हमें बच्चे के प्रयासों को पहचानने की आवश्यकता है, विशेषकर उसके अपने पिछले प्रयासों को हम त्री बिन्दु पैमाने पर उसके सीखने के प्रयासों को दर्ज कर सकते हैं, निम्न उदाहरण के अनुसार –
  - (1) **असाधारण प्रयास** — मूल्यांकन कालांश के दौरान छात्र ने सामान्य से अधिक प्रयास किया।
  - (2) **सामान्य प्रयास** — मूल्यांकन कालांश के दौरान छात्र ने सामान्य प्रयास किया।
  - (3) **अधिक प्रयास की आवश्यकता है** — छात्र को अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
5. कोशिश की जाए कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न शामिल हों जिनके लिए रटे रटाये उत्तरों की अपेक्षा ना हो। इसके बिना इनका उद्देश्य मात्र होगा कि बच्चे जानकारी याद कर लें, जिसे वह वैसे भी बाद में भूल ही जाने वाले हैं। इसके अलावा, प्रश्न विस्तृत समझ को परखने वाले, विचारों को प्रोत्साहित करने वाले और अंत मुक्त उत्तरों की अनुमति देने वाले होने चाहिए। ऐसे प्रश्न भी होने चाहिए जिससे बच्चों की अधूरी समझ का पता लगे या प्रश्न उनकों अपने तर्क देने का अवसर दें। अच्छे तर्क अथवा विश्लेषण करने वाले बच्चे की भी प्रशंसा होनी चाहिए, फिर चाहे बच्चे का उत्तर सही हो कि ना हो। नीचे कुछ ऐसे अलग तरह के प्रश्नों के उदाहरण दिए गये हैं जो बच्चों की क्षमताओं का आकलन रटे रटाए उत्तरों से कहीं आगे जा कर करते हैं।



### उदाहरण 1

दी गई आकृति की परिधि ज्ञात करो।

### उदाहरण 2

1. ऐसी आकृति बनाओ जिसकी परिधि 10 इकाई हो (8 इकाई केवल कठिनाई स्तर को कम करने के लिए)
2. 10 इकाई की परिधिवाली कितनी भिन्न आकृतियाँ आप बना सकते हैं? यदि कहीं अटक रहे हैं तो वर्गाकार कागज का प्रयोग करके देखें।

इस प्रकार के कार्य प्रश्नों द्वारा बच्चे की गणितीय मॉडल बनाने की क्षमता की परीक्षा होती है, और मॉडल के आधार पर, (कठिनाई के भिन्न स्तरों पर आधारित) निष्कर्षों तक पहुँचने की क्षमता का पता लग सकता है।

### उदाहरण 3

समान आकार के 6 वर्ग काटें, जिनकी भुजा ‘‘एक इकाई’’ हो। निम्न प्रश्नों के उत्तर खोजें, (उपरोक्त वर्गों का उपयोग कर के, यदि आवश्यकता हो तो वर्गाकार कागज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है)

सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व



- (i) 6 इकाई वर्गों का प्रयोग करके आप कितनी भिन्न आकृतियाँ बना सकते हैं? इन आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होगा?
- (ii) 6 इकाई वर्गों द्वारा बनाई गई आकृतियों में से किसकी परिधि सबसे ज्यादा है?
- (iii) 6 इकई वर्गों से बनी आकृतियों में से क्या आप निम्नतम परिधि वाली आकृति पहचान सकते हैं?
- (iv) अधिकतम और न्यूनतम परिधि वाली आकृतियों की परिधि इतनी क्यों हैं?

यदि आप उपरोक्त कार्यों का अवलोकन करें तो पायेंगे कि इस प्रकार के कार्य न केवल अवधारणाओं की समझ (इस मामले में परिधि की अवधारणा) का ही प्रमाण देते हैं बल्कि रचनात्मकता, विश्लेषण कौशल इत्यादि के बारे में भी बताते हैं।

इस प्रकार के कार्य भिन्न छात्रों की अवधारण की समझ के स्तर को पहचानने में शिक्षक की मदद करते हैं। वह छात्र जो प्रश्न (iv) का उत्तर सफलता पूर्वक दे पाते हैं उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने परिधि की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया है और वह इसे भिन्न परिस्थितियों में लागू अथवा उपयोग कर सकते हैं।

#### **उदाहरण 4**

**कार्य (क):** 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं (उदाहरण के लिए 11,22,33,44,55...) का परीक्षण करें और परखें कि क्या निम्न कथन सत्य है?

11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के सभी अंक समान होते हैं।

**उत्तर:** .....

11 से विभाजित होने वाली एक संख्या लिखें जो आपके उत्तर को सिद्ध करती हो। इसी कार्य का अतिरिक्त चुनौती वाला रूप: “अपने उत्तर को सिद्ध करने वाली एक संख्या लिखें”।

**उत्तर:** .....

**कार्य (ख) :** 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं (उदाहरण के लिए 110,121,132...176,187,198...) का परीक्षण करें और जाँचे कि क्या निम्न कथन सही हैं:

11 से विभाजित होने वाली संख्या का अंतिम अंक, अपने से पहले अंक से छोटा होता है।

**उत्तर:** .....

11 से विभाजित होने वाली ऐसी संख्या लिखिये जो आपके उत्तर को सिद्ध करती हो।(इस कार्य को और चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है: आपके उत्तर को सिद्ध करने वाली एक संख्या लिखिए।)

**उत्तर:** .....

(उपरोक्त उदाहरण के पी. मोहनन और तारा मोहनन की पुस्तक ‘‘Answering Science Talent’’ से लिए गये हैं जो उपलब्ध है <http://www.iiserpune.ac.in/~mohanan/education/htm>)

#### **A. आकलन और मूल्यांकन संबंधी जानकारियों को दर्ज करना**

सतत आकलन का तात्पर्य, वर्तमान अधिगम में सुधार और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, अतः यह आवश्यक नहीं है कि समस्त अधिगम के प्रमाण बहुतायत में एकत्रित किए



जाए। उन्हें शिक्षक के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ प्रतिवेदनों को छात्रों की अपनी यादों (उदाहरण के लिए कार्य पुस्तिका में लेखन कार्य, कलाकृति, लिखित परीक्षा में उपलब्धि इत्यादि) के लिए रखा जा सकता है। अधिगम के कुछ प्रमाणों को शिक्षक भी अपने निजी रिकार्ड/संकलन में रखना चाह सकता है ताकि उसे समय-समय पर छात्र की प्रगति के बारे में पता चल सके। इससे उसे कुछ समय के बाद मूल्यांकन करने में, छात्रों, अभिभावकों अथवा विद्यालय के साथ प्रगति सुझाव देने में मदद मिलेगी।

### एक तिमाही का सुझाया गया प्रतिवेदन(शिक्षक का अपना रिकार्ड)

बच्चे का नाम	अधिगम के प्रमाण					वैयक्तिक सामाजिक गुणों और कौशलों पर गुणात्मक टिप्पणियां
	1 लिखित परीक्षा	2 गतिविधियों अथवा कार्य योजना पर प्रतिवेदन	3 रचनात्मक कार्य जैसे कि नमूने और पैटर्न बनाना	4 परियोजना कार्य	5 क्षेत्र भ्रमण की रिपोर्ट	

अधिगम कौशलों की एक सूची यहाँ पर सुझाई गई है: स्वतंत्र कार्य, पहल, ग्रहकार्य पूरा करना(कार्य संबंधी आदतें); जानकारी का प्रयोग; अन्य लोगों के साथ सहयोग; द्वंद्व सुलझाना; कक्षा में भागीदारी; समस्या समाधान; और कार्य सुधार के लिए उद्देश्य निर्धारण; (स्रोत: ऑटोरियो सरकारी दस्तावेज “Growing Success: Assessment, Evaluation and Reporting: improving student learning”, 2008)

शिक्षक इनमें से कुछ को अथवा इसी तरह के मानकों का चयन कर सकते हैं, जिन पर वह छात्रों के कौशलों को दर्ज करना चाहते हैं।

### बच्चे की प्रगति दर्ज और रिपोर्ट करना

बच्चे की प्रगति के बारे में दूसरों को कैसे बताया जाए? हम यहाँ पर इस बारे में कुछ सुझाव दे रहे हैं, पर अंतिम निर्णय का अधिकार केवल शिक्षक और विद्यालय का होगा।

- ◆ जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है, प्रगति पत्रक में विशेष विषयों पर ग्रेड्स A+, A, B, C, D इत्यादि दर्शाएं जा सकते हैं।
- ◆ ग्रेड के साथ-साथ गुणात्मक टिप्पणियां भी होंगी जो बतायेंगी कि बच्चे को कहाँ अतिरिक्त मदद चाहिए अथवा कहाँ उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
- ◆ बच्चे के प्रयासों को त्रिबिन्दु पैमाने पर अलग से दर्ज किया जा सकता है।
- ◆ गुणात्मक टिप्पणियां कि कैसे एक बच्चे को, उसे पढ़ाने वाले शिक्षकों का समूह, संपूर्ण रूप से देखता परखता है, भी दी जा सकती हैं।

### व्यक्तित्व संबंधी आयामों को दर्ज ओर रिपोर्ट (प्रतिवेदित) करना

ध्यान में रखना आवश्यक है कि बच्चे की सामान्य विशेषताएँ/क्षमताएँ (उदाहरण के लिए भाषा क्षमता, समझना, एकाग्रता, निर्माण करना, आलोचनात्मक परख, नवाचारी उत्तर देना सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व



इत्यादि) और अभिरूचियाँ (जैसे कि उत्साह, रुचि, कार्यनिष्ठा, सहयोग भावना इत्यादि) को कुछ दिनों, अथवा हफ्तों में कुछ गतिविधियों के माध्यम से परखा नहीं जा सकता। क्षमताएँ और अभिरूचियाँ बदल जाती हैं और इनका प्रभाव धीरे-धीरे कुछ महीनों अथवा सालों में होता है, और इसका प्रमाण कभी कभी मिलता है। इनमें से कुछ की जांच करना तो बहुत ही मुश्किल होगा, अतः व्यक्तित्व के हर पहलू पर बच्चे की जांच करना फलदायी नहीं होगा और इसका परिणाम भी शायद त्रुटिपूर्ण अथवा अर्थहीन हो। बहुत बार विद्यालयों में बच्चों के गुणों को प्रगति पत्र में सूचीबद्ध मानकों की लंबी संख्या के सामने चिन्हित किया जाता है, (अक्सर बिना पर्याप्त सोच विचार और प्रमाण के)।

सामाजिक, निजी गुणों पर ग्रेड नहीं दिए जाने चाहिए। कभी-कभी निजी गुणों पर भी ग्रेड दें दिए जाते हैं। ऐसा करना अपर्याप्त होगा क्योंकि इस प्रकार के गुणों (जैसे कि आपसी सहयोग अथवा सहानुभूति) को सटीक रूप से न तो परिभाषित ही किया जा सकता है, और ना ही किसी व्यक्ति में पहचाना ही जा सकता है। इस प्रकार के गुणों पर एक बच्चे को 'A' ग्रेड देना और किसी दूसरे को 'B' देना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इस अंतर का कोई ठोस आधार नहीं हो सकता है।

हम लोगों को कार्य आधारित छोटे अधिगम समूहों में बांटने में शायद सफल हो सकते हैं, पर मानवों और मानवीय गतिविधियों जैसे कि भागीदारी, सहयोग, पूछताछ, और यहां तक कि दयालुता को भी ग्रेड देना कठिन है। इस प्रकार का भटका हुआ मानववाद अक्सर मानकीकृत परीक्षणों, से भी खराब होता है, क्योंकि यह मानवीय गुणों, मूल्यों और विशेषताओं को मापन योग्य बनाने की कवायद है। (उदाहरण लिया गया है, 'From Visibility to Accountability of Assessment: A sleight of hand'- Gopal Krishnmurthy, Craig Walker and Sunsong Clark, available at <http://journal.kfionline.org/issue-17/from-visibility-to-accountability-and-assessment-a-sleight-of-hand>)

शिक्षक का एक ऐसी डायरी रखना मददगार हो सकता है, जिसका प्रत्येक पन्ना एक छात्र को समर्पित हो। जब भी किसी छात्र के बारे में कुछ विशेष बात देखे या महसूस करे तो वह उसे डायरी में उस छात्र के पन्ने पर दर्ज कर सकते हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो लंबा समय बीतने के बाद वह इसे भूल भी सकते हैं। जब भी किसी छात्र की रिपोर्ट (प्रतिवेदन) बनानी हो तो शिक्षक अन्य शिक्षक साथियों के साथ डायरी से भी सहायता ले सकते हैं। सभी शिक्षक सामूहिक रूप से निर्णय ले सकते हैं कि वह छात्रों के व्यक्तित्व को किन मानकों पर दर्ज करेंगे और वह छात्रों को संपूर्णता: से कैसे दर्खेंगे। इस रिपोर्टिंग प्रतिवेदन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु सहपाठी आकलन से भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए पूरी कक्षा से पूछा जा सकता है कि कौन सा छात्र सबसे ज्यादा सहयोगी, दयालु, उत्साही, संवेदनशील इत्यादि है। यह फीडबैक (प्रतिपुष्टि) लिखित रूप से भी ली जा सकती हैं और यदि बहुत से छात्रों की राय में इन मानकों पर सहमति दिखाई देती है तो इसे रिपोर्ट भी किया जा सकता है। यदि शिक्षक को व्यक्तित्व संबंधी आयामों पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है जिसे रिपोर्ट किया जा सके तो वह उसे खाली भी छोड़ सकते हैं।



## गणित की प्रगति दर्ज करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप

विषय/उपविषय (उदाहरण)	ज्ञान	समझ	लागू करना	टिप्पणी/ अधिगम में सुधार/बढ़ोतरी करने के लिए किए गये प्रयास
<b>पूर्णांक</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>पूर्णांकों की आवश्यकता</li> <li>पूर्णांकों का दैनिक जीवन से संबंध</li> <li>अंकरेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना</li> </ul>	परिभाषाएँ, तथ्यों, प्रक्रियाओं/ एलगोरिथम इत्यादि	व्याख्याएँ, विधियों, एलगोरिथम में छिपे कारणों की खोज इत्यादि	दैनिक जीवन के भिन्न परिवेश में, ज्ञान को लागू करने की क्षमता	

### ग्रेड पैमाना:

**S:** लक्षित ज्ञान/अवधारणाओं पर बच्चे की मूल समझ कमज़ोर है और उसे अतिरिक्त समय, और उपचारात्मक उपायों के द्वारा अपने अधिगम में सुधार की आवश्यकता है।

**C:** लक्षित ज्ञान/अवधारणाओं पर बच्चे की मूल समझ तो है, पर उसे अभी भी अधिक काम करने की जरूरत है।

**B:** लक्षित ज्ञान/अवधारणाओं पर बच्चे ने संतोषजनक समझ प्राप्त की है।

**A:** लक्षित ज्ञान/अवधारणाओं पर बच्चे ने बहुत अच्छी समझ प्राप्त की है।

**A+:** इस कालांश में कराए गये कुछ विषयों पर बच्चे ने अतिरिक्त प्रतिभा, रूचि अथवा रचनात्मकता दर्शायी है।

### प्रयास पैमाना

**स्तर 1 — सामान्योधिक/ अत्याधिक अच्छे प्रयास:** मूल्यांकन कालांश में बच्चे/छात्र ने अत्याधिक अच्छा/सामान्योधिक प्रयास किये हैं।

**स्तर 2 — सामान्य प्रयास:** मूल्यांकन कालांश में छात्र ने सामान्य प्रयास किया हैं।

**स्तर 3 — अधिक प्रयास की आवश्यकता हैं:** बच्चे को अधिक प्रयास के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

\*ध्यान दिया जाएं कि योग्यताओं और अभिवृत्तियों के, लिए कोई ग्रेड नहीं दिए गये हैं। रिपोर्टिंग कालांश में शिक्षक को जो भी महत्वपूर्ण लगता है वह उसे दर्ज कर सकते हैं।

### (ब) बच्चे को फीडबैक देना

रिपोर्ट तैयार करने के बाद जरूरी है कि शिक्षक इसे बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटे और अपने फीडबैक पर उनसे संवाद करें। ऐसा करना महत्वपूर्ण है और इसे सावधानीपूर्वक रचनात्मक और सकारात्मक तरीके से किया जाना चाहिए ताकि यह बच्चे की आत्म छवि अथवा आत्मविश्वास को नुकसान ना पहुँचाए। नियमित रूप से भी बहुत से शिक्षक बच्चे को अनौपचारिक फीडबैक उसी समय दे देते हैं जब बच्चा अधिगम गतिविधि कर रहा होता

सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व



हैं। फीडबैक के द्वारा हमें बच्चे को दूसरों के बजाए खुद से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तुलना का आधार होना चाहिए- मैं कल अथवा सप्ताह पहले कहाँ था और आज कहाँ हूँ? बच्चों के बीच तुलना विनाशक होती हैं और यह इस भावना की ओर भी ले जाती है ‘मैं किसी काम का नहीं हूँ’। इसके विपरीत यदि किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया है तो उस पर और अच्छा करने के लिए शिक्षकों एवं अभिभावकों का दबाव हो सकता है, और इससे उसमें अपने साथियों से श्रेष्ठ होने का भाव भी आ सकता है। यदि बच्चे के अधिगम/सीखने/व्यवहार की किसी कमी की ओर इशारा ही करना है तो ऐसा सभी बच्चों के सामने करने के बजाए एकांत में, प्यार से करना बेहतर होगा। बड़ों की ही तरह बच्चे भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहने हैं, पर वह भी अपनी सार्वजनिक छवि के बारे में भी सचेत होते हैं।

#### (स) अभिभावकों/ संरक्षकों के साथ क्या साझा किया जाए?

अभिभावकों में सबसे ज्यादा यह जानने की चाह रहती है कि उनका बच्चा ‘विद्यालय में कैसा कर रहा है’। शिक्षकों को अक्सर लगता है कि कुछ टिप्पणियों जैसे कि – “अच्छा कर सकता है”, “अच्छा”, “खराब”, “और प्रयास की आवश्यकता है” इत्यादि के माध्यम से उन्होंने प्रभावी तरीके से अपनी बात अभिभावकों तक पहुँचा दी है। इस प्रकार के कथनों से स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है कि बच्चे ने क्या सीखा अथवा वह क्या कर सकता है? इस प्रकार के कथनों से अभिभावकों के मन में बच्चे की योग्यता के बारे में गलत धारणा बन सकती है, जो कि अभिभावक को बच्चे की कठिनाइयों अथवा शक्तियों को समझने में उसकी किसी भी प्रकार की मदद करने में मुश्किल पैदा कर सकती है। यदि फीडबैक को समृद्ध और मददगार होना है तो सुझाव यह है कि शिक्षक सरल भाषा का प्रयोग यह बताने में करे —

- ◆ बच्चा क्या कर सकता है कहाँ उसे मदद की आवश्यकता है? यह मदद कैसे देनी है?
- ◆ बच्चे को क्या करना पसंद है अथवा क्या नहीं?
- ◆ बच्चे के सर्वश्रेष्ठ काम को अभिभावक के साथ बांटना, सफलता और सुधार के आयामों को बताने के साथ-साथ विशिष्ट योग्यताओं की प्रशंसा करना।
- ◆ सकारात्मक तरीके से बच्चे और अभिभावक के साथ सहयोग, जिम्मेदारी, रुचियों, अन्यों के प्रति संवेदनशीलता इत्यादि पर बात करना। यदि बच्चे के किसी क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए ‘दूसरों के साथ सहयोग’ तो यह कहना कि “बच्चे को दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है” बेहतर होगा बजाए इसके कि “बच्चा दूसरों के साथ सहयोग नहीं करता है”।
- ◆ अभिभावकों से चर्चा करें कि (a) वह कैसे मदद कर सकते हैं? (b) उन्होंने घर में बच्चे का क्या व्यवहार देखा जो शिक्षक की अधिगम सुधार में मदद कर सकता है

#### 3.2 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन (वि.आ.व.ब)

योगात्मक आकलन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है अधिगम का सतत पर्यवेक्षण यह पता लगाने के लिए कि क्या शिक्षण का अपेक्षित प्रभाव पड़ भी रहा है कि नहीं। इसी लिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में पहली आवश्यकता होगी उनकी ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील अधिगम



स्थिति का निर्माण। इसके बाद ही शिक्षक आकलन कर पायेंगे कि क्या बच्चा उनसे पर्याप्त रूप से लाभांवित हो रहा है कि नहीं।

इस प्रकार के हर बच्चे की आवश्यकता अलग हो सकती है, इसलिए, शिक्षकों को विशेष अधिगम आवश्यकताओं को समझने और अधिगम बाधाओं को ध्यानपूर्वक पहचानने की जरूरत है। इसके बाद ही शिक्षक यह निर्णय कर पायेंगे कि बच्चे को सीखने के लिए किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है। हो सकता है कि विशेष चुनौतियों का संदर्भ हो पहुँच, संवाद, चलना फिरना, शारीरिक/भावनात्मक परेशानी। इस परिस्थिति में भी अधिगम संभव है। इसीलिए, शिक्षक को समानुभूति का उपयोग करना जरूरी है ताकि वह खुद को बच्चे की जगह रखकर यह आकलन कर पाये कि क्या बच्चा समझ रहा है कि नहीं और क्या वह अपनी आवश्यकता के बारे में सही प्रकार से बता भी पा रहा है कि नहीं। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिगम अवसरों को भिन्न तरीकों से और भिन्न कठिनाई स्तरों पर उपलब्ध कराया जाये ताकि योग्यता और आवश्यकताओं के भिन्न स्तरों को संबोधित किया जा सके। बहुत सी अधिगम स्थितियों में कुछ सुधार या बदलाव की जरूरत भी होगी ताकि बच्चा की इनमें भागीदारी हो सके। मानव करुणा और स्नेह के अभाव में बच्चे की मदद करना मुश्किल होगा। इसीलिए, शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वच्छनात्मक रूप से सोच कर बहुविधी अधिगम अवसर देने होंगे ताकि उनकी भागीदारी भिन्न तरीकों से और उनके उत्तर भिन्न प्रकारों से लिए जा सके।

नियमित मूल्यांकन में कुछ सामान्य तकनीकों को अपनाकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद की जा सकती है। इनमें से कुछ निम्न हैं—

- ◆ बच्चे की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। थकान से निपटने के लिए अल्पावकाश की अनुमति दी जाए।
- ◆ बच्चे की निजी आवश्यकतानुसार उपकरणों के उपयोग की अनुमति जैसे कि संगणक (calculator), , अबेक्स, ब्रेलर, टेलर वाला गणित फ्रेम, उभरा पटटा, पेन्सिल/पेन पकड़ इत्यादि
- ◆ बच्चे की आवश्यकतानुसार तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना जैसे कि संगणक, टेप रिकॉर्डर इत्यादि।
- ◆ परीक्षण पाठ्यक्रम में लचीलापन। उदाहरण के लिए यदि बच्चे के सीखने की गति धीमी है तो उसका परीक्षण एक समय में पूरे पाठ्यक्रम के बजाए विषय की छोटी इकाई पर किया जा सकता है।
- ◆ भाषा में कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों के लिए आंकलन प्रक्रिया में निर्बंधात्मक प्रश्नों की जगह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार प्रश्नों की भाषा को भी सरल करने की आवश्यकता हो सकती है। उचित होगा कि इस तरह के मामले में जब बच्चा कोई काम कर रहा होता है, उसका आकलन/अवलोकन तभी कर लेना चाहिए।
- ◆ उत्तर देने के तरीकों में भी समायोजन करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए लिखित उत्तर की बजाए मौखिक उत्तर (रिकार्ड भी किए जा सकते हैं) अथवा लेखन सहायक उपकरण व स्त्रोत जो मौखिक उत्तरों को संवाद पट की सहायता से दर्शा सकें।

सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व



- ◆ आवश्यकतानुसार बच्चे को निर्देश और प्रश्न पढ़कर सुनाये जाये।
- ◆ बच्चे की आवश्यकतानुसार ब्रेल और छपे हुए आलेख के आकार में बढ़ोतरी करना।
- ◆ अनुकूलित कुर्सी/मेज देकर लेखन को प्रोत्साहित करना, यदि आवश्यक हो तो अलग कमरे में बैठने की व्यवस्था करना।
- ◆ मूल्यांकन समय में लचीलेपन की आवश्यकता यदि बच्चे किसी नियमित दर्वाई का सेवन कर रहे हैं तो।
- ◆ ऐसी अक्षमतायें जिसमें भाषा अधिग्रहण में समस्यायें हो उन्हें त्रिभाषा से छूट दी जा सकती हैं। इशारों वाली भाषा को भी विकल्प के रूप में दिया जा सकता है।

### **3.3 शिक्षक - प्रशिक्षक तथा ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर/क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर की भूमिकाएँ -**

शिक्षकों के व्यवसायिक विकास हेतु आयोजित सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान शिक्षाविदों को निम्न बिंदुओं को ध्यान देने की आवश्यकता है।

- ◆ प्रशिक्षण को केवल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षकों द्वारा सुझाए गए सी.सी.ई. को लागू करने के तरीके या नीति को बताकर अव्यवस्थित ढंग से आयोजित नहीं किया जाए बल्कि कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए जाएँ ताकि उन्हें विचार-विमर्श करने के अवसर मिले और वे उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें व साथ ही अपनी समस्याएँ भी रख सकें।
- ◆ प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की विधि ऐसी हो जहाँ सतत और समग्र मूल्यांकन को कक्षा में लागू करने के तरीकों पर शिक्षकों को परस्पर बातचीत व एक दूसरे से सीखने का अवसर मिलो। अपने विद्यालयों में कक्षाओं में वे सतत और समग्र मूल्यांकन किस प्रकार से कर रहे हैं, इन पर बातचीत से उन्हें एक-दूसरे से सीखने के अवसर मिलेंगे।
- ◆ किसी भी विषय क्षेत्र में सतत और समग्र मूल्यांकन लागू करने के लिए उस विषय की प्रकृति की समझ, उसका उस विषय की एप्रोच (जैसा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में बतायी गई है) बहुत मायने रखती है। इन सभी पक्षों पर समझ बनाए बगैर प्रशिक्षण कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं है।
- ◆ विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में, उनके शिक्षा विभाग द्वारा सतत और समग्र मूल्यांकन के अंतर्गत बच्चे की प्रगति की रिकार्डिंग तथा रिपोर्टिंग के लिए कई तरह के प्रपत्र विकसित किए गए हैं। शिक्षकों के अनुभव यह दर्शाते हैं कि इस प्रक्रिया में इन प्रपत्रों से कोई मदद नहीं मिलती है बल्कि उन प्रपत्रों को भरने में सीखने-सिखाने का बहुत-सा समय लग जाता है। इसलिए, ऐसे प्रपत्रों को भरे जाने को निरूपित किए जाने की आवश्यकता है।
- ◆ शिक्षक विभिन्न स्थितियों में कार्य करते हैं जैसे-बहुसंख्य छात्र कक्षा, बहुश्रेणी कक्षा, दुर्गम स्थानों में विद्यालय का होना आदि। इसलिए एक ही तरह के रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग के प्रपत्र से हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। विद्यालयों तथा कक्षाओं की विभिन्न स्थितियों में 'क्या रिकॉर्ड करें', 'क्यों रिकॉर्ड करें' तथा 'कैसे रिकॉर्ड करें' के निर्धारित प्रपत्र, जिनमें लचीलापन नहीं है सतत और समग्र मूल्यांकन को सच्चे अर्थों में लागू करने में सहायक नहीं होंगे।



### 3.4 सी.सी.ई. में प्रशासकों की भूमिका

सी.सी.ई. इस मान्यता पर आधारित है कि सीखना-सिखाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि बच्चे और उसके सहपाठी तथा शिक्षक के बीच बातचीत/चर्चा पर निर्भर करती है। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो कक्षा में बच्चों के साथ सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं। इसलिए बच्चे के सीखने की ज़रूरत, स्तर तथा प्रगति को आँकने के लिए शिक्षक ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। यदि संरचनावादी आकलन में कोई रिकॉर्ड रखना है, तो शिक्षिका को केवल सूचित कर दिया जाए, उसके बाद यह उन पर निर्भर है कि वह कौन-सा रिकॉर्ड रखना चाहती हैं। प्रत्येक कक्षा की हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखना अव्यावहारिक और कठिन कार्य है, इससे सीखने-सिखाने में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। केवल कई महीनों की कक्षाओं में से, बच्चे के कुछ कार्यों का रिकॉर्ड जैसे-लेखन कार्य, चार्ट्स, ग्राफ्स, मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट्स, ड्राइंग्स इत्यादि, दूसरे लोगों जैसे अभिभावकों आदि के साथ यदि ज़रूरत पड़े तो साझा किया जाए। विद्यालय की एक नीति हो कि शिक्षक क्या रिपोर्ट करें? लेकिन शिक्षक पर इस बात के लिए दबाव न डाला जाए कि वह अपनी प्रत्येक कक्षा तथा प्रत्येक गतिविधियों की निरंतर रिकॉर्डिंग तथा रिपोर्टिंग करें।

इसके लिए शिक्षा अधिकारियों तथा विद्यालय निरीक्षकों द्वारा शिक्षक की स्वायत्तता को सम्मान दिया जाना ज़रूरी है। सतत और समग्र मूल्यांकन के लिए ज़रूरी है कि कक्षा का वातावरण शिक्षक तथा बच्चों दोनों के लिए भयरहित हो। प्रशासक शिक्षकों को कक्षा में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों से बातचीत और आकलन के लिए उत्साहित करें न कि पूरा सिखाने के बाद वे कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के लिए शिक्षकों को अपना फ़िडबैक दें, जिसके कुछ उदाहरण पहले दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:-

1. चार से पांच दिवसीय एक मुश्त लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना जहां तक संभव हो छुट्टियों में बनाई जाए ताकि बच्चों और शिक्षकों का अधिगम में लगने वाला समय प्रशिक्षण में न लगे।
2. प्रशासकों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि विद्यालय में बच्चे के सीखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के साथ उनकी लगातार/नियमित बातचीत से ही अनेक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
3. समय-सारिणी में लचीलापन बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो सीखा है, उन सभी विचारों को कक्षा में करके देखने में समय-सारिणी का लचीलापन सहायक होगा। यह लचीलापन पूरे स्कूल समय के भीतर ही होना चाहिए।
4. शिक्षकों को सरलता से उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल, बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर सीखना इत्यादि के लिए प्रोत्साहित करें, जो कि कई बार प्रधानाध्यापकों द्वारा नहीं किया जाता है।
5. शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राप्त जानकारी प्रधानाध्यापक तथा अन्य शैक्षिक अधिकारियों जैसे-बी.आर.सी. के साथ बाँटी जानी चाहिए। इसमें सभी को अपने विभिन्न सतत आकलन के कुछ महत्वपूर्ण तत्व




- विषय क्षेत्रों में समय-समय पर आए शिक्षण पद्धति के बदलावों (Pedagogical Shift) की समझ बनाने तथा अपने ज्ञान और जानकारी को संबद्ध करने में मदद मिलेगी।
6. शिक्षकों को यह आज्ञादी हो कि वे बच्चों की ज़रूरत के अनुसार पाठ्यक्रम को पढ़ाएं। उदाहरण के लिए अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों को पाठ एक क्रम से पढ़ाने होते हैं जो कि स्कूल सुझाता है। इस संबंध में शिक्षकों को स्वतंत्रता हो कि वे बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन ला सकें।







## सी. सी. ई. पैकेज श्रृंखला की अन्य पुस्तकें




प्राथमिक शिक्षा



कला शिक्षा



विज्ञान



सामाजिक विज्ञान



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING